

बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा 33 एवं 34 की उपधारा (2) तथा नियम 19 के अधीन लेखापरीक्षित खातों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।

पंजीकरण संख्या ई-23382 (मुंबई)

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एन ई आई ए ट्रस्ट

समाप्त वर्ष के लिए: 31 मार्च, 2025.

क)	क्या खातों का रखरखाव नियमित रूप से तथा अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है;	हाँ
ख)	क्या प्राप्तियां एवं वितरण खातों के विवरण उचित एवं सही ढंग से दर्शाए गए हैं;	हाँ
ग)	क्या लेखापरीक्षा की तारीख को प्रबंधक अथवा ट्रस्टी की पास उपलब्ध नकदी शेष अथवा वाउचर, खातों के अनुरूप थे;	हाँ
घ)	क्या लेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित सभी बहियाँ, विलेख, खाते, वाउचर अथवा अन्य दस्तावेज अथवा अभिलेख उसे प्रस्तुत किए गए;	हाँ
ङ)	क्या चल एवं अचल सम्पत्तियों का रजिस्टर का रखरखाव उचित रूप से किया जाता है, उसमें हुए परिवर्तनों की सूचना समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाती है, तथा पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित दोषों एवं अशुद्धियों का विधिवत निवारण किया गया है;	किसी प्रकार की स्थायी संपत्ति नहीं है
च)	क्या प्रबंधक अथवा ट्रस्टी अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जिसे लेखा परीक्षक द्वारा उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कहा गया था, उनके समक्ष उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गयी;	हाँ
छ)	क्या ट्रस्ट की कोई संपत्ति अथवा निधि ट्रस्ट के उद्देश्य अथवा प्रयोजन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य अथवा प्रयोजन के लिए उपयोग की गई थी;	नहीं
ज)	एक वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि एवं	शून्य



	बट्टे खाते में डाली गई राशि, यदि कोई हो;	
झ)	क्या 5000/- रुपये से अधिक व्यय वाली मरम्मत अथवा निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई;	लागू नहीं
ञ)	क्या सार्वजनिक ट्रस्ट का कोई धन धारा 35 के प्रावधानों के विपरीत निवेश किया गया ;	नहीं
ट)	धारा 36 के प्रावधानों के विपरीत अचल संपत्ति का हस्तांतरण, यदि कोई हो, जो लेखा परीक्षक के ध्यान में आया हो;	शून्य
ठ)	सार्वजनिक ट्रस्ट से संबंधित धन अथवा अन्य संपत्ति को वसूलने में अनियमित, अवैध अथवा अनुचित व्यय अथवा विफलता अथवा चूक अथवा धन अथवा अन्य संपत्ति की हानि अथवा क्षति के सभी मामले, तथा क्या ऐसा व्यय, विफलता, चूक, हानि अथवा क्षति ट्रस्टियों अथवा ट्रस्ट के प्रबंधन में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से विश्वास भंग अथवा निधियों के गलत उपयोग अथवा किसी अन्य कदाचार के परिणामस्वरूप हुई थी;	शून्य
ड)	क्या बजट नियम 16ए द्वारा प्रदत्त प्रारूप में दायर किया गया है	नहीं
ढ)	क्या ट्रस्टियों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या बनाए रखी गई है;	हाँ
ण)	क्या बैठकें संबन्धित दस्तावेज में उल्लिखित अनुसार नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं;	हाँ
त)	क्या बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्त बही रखी जाती है;	हाँ
थ)	क्या ट्रस्टियों में से किसी ट्रस्टी का ट्रस्ट के निवेश में कोई हित है;	नहीं
द)	क्या ट्रस्टियों में से कोई ट्रस्टी ट्रस्ट का लेनदार अथवा देनदार है	नहीं
ध)	क्या पिछले वर्ष के खातों में लेखा परीक्षकों द्वारा उल्लिखित अनियमितताओं का लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान ट्रस्टियों द्वारा विधिवत निदान किया गया है;	शून्य
न)	कोई विशेष मामला जिसे लेखा परीक्षक द्वारा उप	शून्य



अथवा सहायक धर्मादाय आयुक्त के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है ;	
---	--

यू डी आई एन : 25223609BMIBXM5224

कृते बंसीलाल शाह एंड कं

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या .: 000384 डबल्यू

हस्ताक्षरित

तारीख : 22/09/2025

सीए ध्रुव शाह

भागीदार

स्थान : मुंबई

सदस्यता संख्या .: - 223609



Bansilal Shah & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Ref. No. _____

Date _____

Report of an auditor relating to accounts audited under sub-section (2) of section 33 & 34 and rule 19 of the Bombay Public Trusts Act.

Registration No. E-23382 (MUMBAI)

Name of the Public Trust: NEIA TRUST

For the year ended: 31st March, 2025.

(a)	Whether accounts are maintained regularly and in accordance with the provisions of the Act and the rules;	YES
(b)	Whether receipts and disbursements are properly and correctly shown in the accounts;	YES
(c)	Whether the cash balance and vouchers in the custody of the manager or trustee on the date of audit were in agreement with the accounts;	YES
(d)	Whether all books, deeds, accounts, vouchers or other documents or records required by the auditor were produced before him;	YES
(e)	Whether a register of movable and immovable properties is properly maintained, the changes therein are communicated from time to time to the regional office, and the defects and inaccuracies mentioned in the previous audit report have been duly complied with;	THERE ARE NO FIXED ASSETS.
(f)	Whether the manager or trustee or any other person required by the auditor to appear before him did so and furnished the necessary information required by him;	YES
(g)	Whether any property or funds of the Trust were applied for any object or purpose other than the object or purpose of the Trust;	NO
(h)	The amounts of outstanding for more than one year and the amounts written off, if any;	NIL
(i)	Whether tenders were invited for repairs or construction involving expenditure exceeding Rs. 5000/-;	NA
(j)	Whether any money of the public trust has been invested contrary to the provisions of Section 35;	NO
(k)	Alienations, if any, of the immovable property contrary to the provisions of Section 36 which have come to the notice of the auditor;	NIL
(l)	All cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover monies or other property belonging to the public trust or loss or waste of money or other property thereof, and whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the trustees or any other person while in the management of the trust;	NIL
(m)	Whether the budget has been filed in the form provided by rule 16A;	NO
(n)	Whether the maximum and minimum number of the trustees is maintained;	YES
(o)	Whether the meetings are held regularly as provided in such instrument;	YES
(p)	Whether the minute books of the proceedings of the meeting is maintained;	YES
(q)	Whether any of the trustees has any interest in the investment of the	NO

Mumbai Off. : 1027, 10th Floor, Hubtown Solaris, N S Phadake Road, Saiwadi, NR Gokhle Flyover, Andheri (E) Mumbai-400069, Ph. : 022-67410769

Udaipur Off. : 2nd Floor, Meera Complex, 1, Sardarpura, Udaipur-313001, Ph. : 0294-2425317

e-mail : dhruvshah07@gmail.com, ashah0099@gmail.com



	trust;	
(r)	Whether any of the trustees is a debtor or creditor of the trust;	NO
(s)	Whether the irregularities pointed out by the auditors in the accounts of the previous year have been duly complied with by the trustees during the period of audit;	NIL
(t)	Any special matter which the auditors may think fit or necessary to bring to the notice of the Deputy or Assistant Charity Commissioner;	Nil

UDIN: 25223609BMIBXM5224

FOR BANSILAL SHAH & CO.

Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000384W


CA Dhruv Shah
Partner



Membership No.: - 223609

Date: 22/09/2025

Place: Mumbai

22 सितंबर 2025 को न्यासी बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एनईआईए ट्रस्ट के वार्षिक खातों को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा पारित संकल्प

संकल्प:

“संकल्प किया गया कि न्यासी बोर्ड द्वारा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एनईआईए ट्रस्ट के वार्षिक खातों को, जिसमें 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए 31 मार्च 2025 तक की तुलन पत्र सहित आय एवं व्यय खातों को एतद्वारा अपनाया जाएगा।”

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ , प्रमुख ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**

श्री सुबीर कुमार दास , प्रबंध ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**

सुश्री हर्षा बंगारी , ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**



Resolution by circulation for the adoption of annual accounts of NEIA Trust for the FY 2024-25, by the Board of Trustees on 22nd September 2025

Resolution:

“RESOLVED THAT the annual accounts of the NEIA Trust for the year ended 31st March 2025 consisting of income & Expenditure Accounts for the period ended 31st March 2025 and Balance Sheet as on 31st March 2025, be and hereby adopted by the Board of Trustees.”

Shri Sristiraj Ambastha, Chairman Trustee

S. Ambastha
22/09/25

Shri, Subir Kumar Das, Managing Trustee

S. Subir Kumar Das
22/09/25

Smt. Harsha Bangari, Trustee

Harsha Bangari



आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए न्यासी मण्डल द्वारा 22 सितंबर 2025 को एनईआईए ट्रस्ट की संचित आय को अपनाने के लिए परिचालन द्वारा पारित संकल्प

विषय: आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए न्यासी बोर्ड द्वारा 22 सितंबर 2025 को ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए पांच साल की अवधि, अर्थात् मार्च, 2030 तक एनईआईए ट्रस्ट की आय का संचय।

संकल्प :

“संकल्प किया गया कि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11(2) के लागू प्रावधानों के अनुसार ट्रस्ट के निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 31/03/2030 तक एनईआईए ट्रस्ट (“ट्रस्ट”) की 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान हुई आय में से शून्य रुपये की संचित राशि दर्शाई जाये एवं उसे अलग रखी जाये। “

“आगे संकल्प किया गया कि ट्रस्ट द्वारा अधिनियम की धारा 11(5) के अंतर्गत निवेश की स्वीकार्य पद्धति के अनुसार अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए इस प्रकार से अर्जित आय शून्य रुपए को अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाएगा। “

श्री सृष्टिराज अंबष्ठ , प्रमुख ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**

श्री सुबीर कुमार दास , प्रबंध ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**

सुश्री हर्षा बंगारी , ट्रस्टी **हस्ताक्षरित**



Resolution by circulation for the Accumulation of income of the NEIA Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) for the FY 2024-25 by the Board of Trustees on 22nd September 2025

Subject: Accumulation of income of the NEIA Trust for a period of five years, i.e. upto March, 2030 for utilization towards the specified objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) for the FY 2024-25 by the Board of Trustees on 22nd September 2025.

Resolution:

“RESOLVED THAT a sum of Rs Nil to be accumulated and set apart for utilization towards the specified objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act) upto 31/03/2030 out of the income of the NEIA Trust (“The Trust”) for the year ended 31st March 2025 for the Objects of the Trust in terms of applicable provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961 (the Act).

“RESOLVED FURTHER THAT the Trust do invest the income so accumulated of Rs. Nil in Fixed Deposits with the Scheduled Banks being the permissible mode of investment u/s. 11(5) of the Act for a period not exceeding 5 years”

Shri Sristiraj Ambastha, Chairman Trustee

S. Ambastha
22/09/25

Shri, Subir Kumar Das, Managing Trustee

S. Subir Kumar Das
22/09/25

Smt. Harsha Bangari, Trustee

Harsha Bangari



निधि एवं देयताएं	राशि रुपये में	राशि रुपये में	संपत्ति एवं परिसंपत्तियाँ	राशि रुपये में	राशि रुपये में
ट्रस्ट फंड या कॉर्पस :- पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त धनराशि	47,41,00,00,000	47,41,00,00,000	अचल संपत्तियाँ :- पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाएँ: वर्ष के दौरान विक्रय दिनांक तक मूल्यहास		
अन्य निर्धारित निधियाँ:- (ट्रस्ट डीड अथवा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत अथवा आय से निर्मित) मूल्यहास निधि ऋण शोधन निधि सुरक्षित कोष कोई अन्य निधि- विशेष आरक्षित निधि			निवेश :- फर्नीचर एवं फिक्स्चर :- पिछली बैलेंस शीट के अनुसार शेष राशि वर्ष के दौरान परिवर्धन घटाएँ: वर्ष के दौरान विक्रय दिनांक तक मूल्यहास		
ऋण (सुरक्षित अथवा असुरक्षित) :- ट्रस्टियों से अन्य से			ऋण (सुरक्षित अथवा असुरक्षित) : अच्छा/संदिग्ध ऋण छात्रवृत्ति अन्य ऋण		
देयताएं :- व्ययों के लिए सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधि में योगदान का प्रावधान दावे स्वीकृत परंतु प्रदत्त नहीं अग्रिम के लिए ईसीजीसी से प्राप्त अग्रिम गारंटी शुल्क इंडिया एक्जिम्ब बैंक से अग्रिम गारंटी शुल्क गारंटी शुल्क अग्रिम रूप से प्राप्त हुआ परंतु आवंटित नहीं किया गया अतिरिक्त गारंटी शुल्क के प्रतिदाय का प्रावधान	80,70,39,846 17,99,83,84,838 2,21,25,814 1,39,51,60,126 55,71,474 6,95,336		अग्रिम :- ट्रस्टियों के लिए कार्मिकों के लिए ठेकेदारों के लिए वकीलों के लिए अन्य के लिए		
किराए एवं अन्य जमा राशि के लिए			प्रदत्त आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस एवं मांग के विरुद्ध प्रदत्त कर) प्रोपेड प्रशासनिक व्यय	5,52,57,49,901	5,59,66,14,199
विविध क्रेडिट शेष के लिए देय टीडीएस व्यय के लिए विविध लेनदार प्रशासनिक व्यय के लिए ईसीजीसी को देय	8,47,526 5,60,520 85,92,763	20,23,89,78,243	उपार्जित पूंजी :- ब्याज (उपार्जित)		94,53,514
आय एवं व्यय खाता:- पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि घटाएँ: विनियोग, यदि कोई हो	(52,80,07,65,491)		नकदी एवं बैंक शेष :- (क) सूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चालू खाते में (ख) विभिन्न बैंकों के सावधि जमा खाते में (ग) ट्रस्टी के साथ (घ) प्रबंधक के साथ		2,69,89,552 14,17,00,00,000
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते के अनुसार अधिशेष (घाटा)	4,95,48,44,513	(47,84,59,20,978)			
कुल		19,80,30,57,265	कुल		19,80,30,57,265

हमारी सर्वोत्तम धारणा के अनुसार उपरोक्त तुलन पत्र में ट्रस्ट की निधि एवं देनदारियों तथा संपत्ति एवं परिसंपत्तियों का सही लेखा-जोखा है।

कृते एनईआईए ट्रस्ट

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार,
कृते बंसीदास शाह एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फॉर्म पंजीकरण सं. 000384W

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

(सुरिंराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष ट्रस्टी

(सुबीर कुमार दास)
प्रबंध ट्रस्टी

(हर्षा नंगारी)
ट्रस्टी

सीए ध्रुव शाह
साझेदार - एम. सं. 223609

दिनांक : 22/09/2025
स्थान : मुंबई



SCHEDULE - VIII
[Vide Rule 17 (1)]

Name of the Public Trust: NEIA Trust
Balance Sheet As At: 31/03/2025

Registration No. : E 23382

FUNDS & LIABILITIES	Amounts in Rs	Amounts in Rs	PROPERTY & ASSETS	Amounts in Rs	Amounts in Rs
Trusts Funds or Corpus :- Balance as per last Balance Sheet Add: Fund received during the year	47,41,00,00,000 -	47,41,00,00,000	Immovable Properties :- Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less : Sales during the year Depreciation up to date		
Other Earmarked Funds :- (Created under the provisions of the trust deed or scheme or out of the Income) Depreciation Fund Sinking Fund Reserve Fund Any Other Fund- Special Reserve			Investments :-		
Loans (Secured or Unsecured) :- From Trustees From Others			Furniture & Fixtures :- Balance as per last Balance Sheet Additions during the year Less : Sales during the year Depreciation up to date		
Liabilities :- For Expenses Provision for contribution to Public Trust Administration Fund Claims Approved but not paid For Advances Advance Guarantee Fees received from ECGC Advance Guarantee Fees from India Exim Bank Guarantee Fees received in advance but not allocated Provision for refund of Excess Guarantee Fee For Rent & Other Deposits For Sundry Credit Balances TDS Payable Sundry Creditors for expenses Payable to ECGC towards Administrative Expenses	80,70,39,846 17,99,83,84,838 2,21,25,814 1,39,51,60,126 55,71,474 6,95,336 8,47,526 5,60,520 85,92,763		Loans (Secured or Unsecured) : Good/doubtful Loans Scholarships Other Loans		
Income and Expenditure Account :- Balance as per last Balance Sheet Less : Appropriation, if any Add : Surplus (Deficit) as per Income and Expenditure Account	(52,80,07,65,491) 4,95,48,44,513	20,23,89,78,243 (47,84,59,20,978)	Advances :- To Trustees To Employees To Contractors To Lawyers To Others Income Taxes Paid (Advance Tax, TDS & Tax paid against demand) Prepaid Administrative Expenses	5,52,57,49,901 7,08,64,298	5,59,66,14,199
Total		19,80,30,57,265	Accrued Income :- Interest (Accrued)		94,53,514
			Cash and Bank Balances :- (a) In Current Account with Union Bank of India (b) In Fixed Deposit Account with various banks (c) With the Trustee (d) With the Manager		2,69,89,552 14,17,00,00,000
			Total		19,80,30,57,265

The above Balance Sheet to the best of our belief contains a true account of the Funds and Liabilities and of the Property and Assets of the Trust.


S. Ambastha
22/09/25
(Sristiraj) Ambastha
Chairman Trustee

For NEIA TRUST
Subir Kumar Das
22/09/2025
Subir Kumar Das
Managing Trustee

Harsha Bangari
(Harsha Bangari)
Trustee

As per our report of even date,
FOR BANSILAL SHAH & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000384W
Bansilal Shah
CA Bansilal Shah
Partner - M. No. 223609

Date : 22/09/2025
Place : Mumbai



अनुसूची - IX
[संदर्भित नियम 17 (1)]

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम: एन ई आई ए ट्रस्ट
दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

पंजीकरण संख्या- ई 23382

व्यय	राशि रु. में	राशि रु. में	आय	राशि रु. में	राशि रु. में
संपत्तियों के संबंध में व्यय:- रेंट, कर, उपकर परम्पत एवं रखरखाव वेतन बीमा मूल्यहास अन्य व्यय			किराए से उपार्जित प्राप्त		
ट्रस्टियों को पारिधमिक पारिधमिक के लिए (गणित के मापले में)			प्रवाज से पुनर्जन की तिथि सागधि नमा	94,53,514	
स्थापना व्यय के लिए परामर्श शुल्क प्रशासनिक व्यय	6,73,980 1,52,71,031	1,59,45,011	प्राप्त सागधि जया सावधि नमा पर टी डी एल आयकर रिफंड पूर्व अवधि का टी डी एल पूर्व अवधि आयकर रिफंड ऋण पर	90,65,58,097 8,41,07,906 5,40,77,339 1,40,93,032 19,53,32,716	1,26,36,22,604
कर्मचारी व्ययों के लिए		4,95,600	बैंक खाते पर		
लेखा परीक्षा शुल्क के लिए		1,47,500	सामाजिक द्वारा नकद अथवा वस्तु के रूप में दान द्वारा		
योगदान एवं शुल्क के लिए		5,68,36,012	अनुदान द्वारा		
भूखे खाते में डाली गई राशि तक- अशोध्य ऋण ऋण छाकवृत्ति अर्थात्पूर्वनीय किराया अन्य मद			अन्य स्रोत से आय द्वारा (जहाँ तक संभव हो विस्तृत विवरण सहित) रिजर्व से अंतरण द्वारा		
निर्माण व्यय (बैंक शुल्क सहित) मूल्यांकन के लिए भागीदार अथवा विशिष्ट निधियों में अंतरांतर राशियों के लिए		39,404	अन्य स्रोतों से आय द्वारा प्राप्त पारदर्शी शुल्क ईसीजीसी से इंडिया एक्जिजिट बैंक से	1,40,24,814 26,27,53,286	27,67,78,100
ट्रस्ट के प्रदर्शनों पर व्यय:- धार्मिक शिक्षात्मक चिकित्सा सहायता गरीबी में सहायता अन्य धर्मार्थ उद्देश्य (प्रवत दावे / स्वीकृत दावे / लंबित दावों के लिए प्रावधान)"			दान प्राप्तियों द्वारा ईसीजीसी को देय कानून संबंधी शुल्कों को प्रत्यावर्तित कर सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान को प्रत्यावर्तित कर		1,31,15,42,014 3,07,38,852 90,49,14,093
मुक्त पत्र में स्वानांतरित अधिशेष		4,95,48,44,513	दावों में प्रावधान को प्रत्यावर्तित कर		1,24,07,12,377
कुल		5,02,83,08,040	कुल		5,02,83,08,040

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(सुपिराज अम्बड
अध्यक्ष ट्रस्टी)

हस्ताक्षरित

(सुबीर कुमार दास
प्रबंध ट्रस्टी)

हस्ताक्षरित

(हर्षा बंगारी
ट्रस्टी)

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसीलाल शाह एंड कंपनी
सनादी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 000384W

हस्ताक्षरित

सी ए द्रव शाह
भागीदार - एम सं- 223609

दिनांक: 22/09/2025
स्थान: मुंबई



SCHEDULE - IX
[Vide Rule 17 (I)]

Name of the Public Trust : NEIA Trust
Income and Expenditure Account for the year ended 31st Mar 2025

Registration No. - E 23382

EXPENDITURE	Amounts in Rs	Amounts in Rs	INCOME	Amounts in Rs	Amounts in Rs
To Expenditure in respect of properties :-			By Rent		
Rates, Taxes, Cesses			Accrued		
Repairs and maintenance			Realised		
Salaries			By Interest		
Insurance			Accrued On		
Depreciation			Fixed Deposits	94,53,514	
Other Expenses					
To Remuneration to Trustees			Realised On		
To Remuneration(In the case of a math)			Fixed Deposits	90,65,58,097	
To Establishment Expenses	6,73,980	1,59,45,011	TDS on Fixed Deposits	8,41,07,906	
Consultancy Charges			Income Tax Refund	5,40,77,339	
Administrative Expenses	1,52,71,031		Prior period TDS	1,40,93,032	
			Prior period Income Tax Refund	19,53,32,716	1,26,36,22,604
To Legal Expenses		4,95,600	On Loans		
			On Bank account		
To Audit Fees		1,47,500	By Dividend		
			By Donation in Cash or Kind		
To Contribution and Fees		5,68,36,012	By Grants		
To Amount Written Off-			By Income From Other Source (In details as far as possible)		
Bad Debts			By Transfer from Reserve		
Loan Scholarships			By Income from Other Sources		
Irrecoverable Rents			Guarantee Fees Received		
Other Items			From ECGC	1,40,24,814	
To Miscellaneous Expenses(including Bank charges)		39,404	From India Exim Bank	26,27,53,286	27,67,78,100
To Depreciations					
To Amounts Transferred to Reserve or Specific Funds			By Claim Recovery		1,31,15,42,014
			By Reversal of Legal Charges payable to ECGC		3,07,38,852
To Expenditure on object of the Trust :-			By Reversal of contribution to Public Trust Administration Fund		90,49,14,093
Religious			By Reversal of provision for claims		1,24,07,12,377
Educational					
Medical Relief					
Relief of poverty					
Other Charitable objects					
(Claims Paid / Claims Approved / Provision for pending claims)					
To Surplus carried over to Balance Sheet		4,95,48,44,513			
TOTAL		5,02,83,08,040	TOTAL		5,02,83,08,040

S. Ambastha
22/09/25
(Sristiraj Ambastha)
Chairman Trustee

For NEIA TRUST
S. Kumar Das
22/09/25
(Subir Kumar Das)
Managing Trustee

Harsha Bangari
(Harsha Bangari)
Trustee

As per our report of even date,
FOR BANSILAL SHAH & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000384W
Dhrumil Shah
CA Dhrumil Shah
Partner - M. No. 223609

Date : 22/09/2025
Place : Mumbai



अनुसूची IX -सी

दिनांक 31/03/2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंशदान के लिए उत्तरदायी सार्वजनिक ट्रस्ट की आय का विवरण

सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम और पंजीकृत संख्या: एन ई आई ए ट्रस्ट

पंजीकरण सं.- ई 23382

		रु.	रु.
I	आय को आय एवं व्यय खाते (अनुसूची IX) में दर्शाया जाता है		2,85,19,42,718
II	धारा 58 एवं नियम 32 के अंतर्गत अंशदान हेतु भारत नहीं होने वाली वस्तुएं		
	(i) अन्य सार्वजनिक ट्रस्टों एवं धर्मादों से प्राप्त अनुदान		
	(ii) सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त अनुदान		
	(iii) सिंकिंग अथवा मूल्यहास निधि पर ब्याज		
	(iv) धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के उद्देश्य से व्यय की गई राशि		
	(v) चिकित्सा रियायत के उद्देश्य से व्यय की गई राशि		
	(vi) पशुओं के चिकित्सा के उद्देश्य से व्यय की गई राशि		
	(vii) सूखा, बाढ़, अग्नि अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा एवं अभाव के कारण उत्पन्न संकट से रियायत हेतु अनुदान पर किया गया व्यय।		
	(viii) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से आय में कटौती -		
	(क) भूमि राजस्व एवं स्थानीय निधि उपकर		
	(ख) वरिष्ठ मकान मालिक को देय किराया		
	(ग) यदि भूमि पर ट्रस्ट द्वारा खेती की जाती है तो उत्पादन लागत		
	(ix) गैर कृषि प्रयोजन से प्रयुक्त भूमि से प्राप्त आय में से कटौती -		
	(क) मूल्यांकन, उपकर एवं अन्य सरकारी अथवा नगरपालिका कर		
	(ख) वरिष्ठ मकान मालिक को देय भूमि किराया		
	(ग) बीमा प्रीमियम		
	(घ) इमारतों के सकल किराये के 10 प्रतिशत पर मरम्मत		
	(ङ) किराये पर दी गई इमारत के सकल किराये के 4 प्रतिशत पर संग्रहण लागत		
	(x) प्रतिभूतियों, स्टॉक आदि से आय अथवा प्राप्ति के संग्रहण की लागत रूपी आय के एक प्रतिशत पर रु की ब्याज आय का 1%		
	1,01,42,12,549	1,01,42,125	
	(xi) किराए पर नहीं दिए गए भवनों के संबंध में मरम्मत के कारण कटौती अनुमानित सकल वार्षिक किराये के 10 प्रतिशत पर आय अर्जित करना		1,01,42,125
	योगदान पर देय सकल वार्षिक आय		2,84,18,00,593
	धारा 58 का उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित दर पर गणना की गई अंशदान की राशि एवं अंशदान पर भारत सकल वार्षिक आय का 2% देय		5,68,36,012

"प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसूची के अंतर्गत स्वीकार्य कटौतियों का दावा करते समय, हमने अनुसूची में उल्लिखित किसी भी मद के लिए किसी भी राशि का दो बार, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, दावा नहीं किया है, जिसका प्रभाव दोहरी कटौती के रूप में हो।"

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हमारी सम-तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसीलाल शाह एंड एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या- 000384W

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

हस्ताक्षरित

(सुशिराज अम्बष्ठ)
अध्यक्ष ट्रस्टी

(सुबीर कुमार दास)
प्रबंध ट्रस्टी

(हर्षा बंगारी)
ट्रस्टी

सी ए ध्रुव शाह
भागीदार - एम सं- 223609

दिनांक: 22/09/2025
स्थान: मुंबई



SCHEDULE IX -C

Statement of income of the public trust liable to contribution for the year ended 31/03/2025

Name and Registered No of Public Trust : NEIA TRUST

Regn. No.:- E 23382

		Rs.	Rs.
I	Income is shown in the Income and Expenditure Account (Schedule IX)		2,85,19,42,718
II	Items not chargeable to contribution under section 58 and rule 32		
	(i) Donations received from other public trust and Dharmads		
	(ii) Grant received from Government and local authorities		
	(iii) Interest on Sinking or Depreciation Fund		
	(iv) Amount spent for the purpose of secular education		
	(v) Amount spent for the purpose of medical relief		
	(vi) Amount spent for the purpose of veterinary treatment of animals		
	(vii) Expenditure incurred from donations for relief of distress caused by scarcity, drought, flood, fire or other natural calamity		
	(viii) Deduction out of income from lands used for agricultural purpose -		
	(a) Land revenue and Local Fund Cess		
	(b) Rent payable to superior landlord		
	(c) Cost of production if lands are cultivated by the trust		
	(ix) Deductions out of income from lands used from non agricultural purpose -		
	(a) Assessment, cesses and other Government or municipal taxes		
	(b) Ground rent payable to the superior landlord		
	(c) Insurance premia		
	(d) Repairs at 10 per cent of gross rent of buildings		
	(e) Cost of collection at 4 per cent of gross rent of building let out		
(x)	Cost of collection of income or receipt from securities, stocks etc. at one percent of such income 1% of Interest Income of Rs. 1,01,42,12,549	1,01,42,125	
(xi)	Deductions on account of repairs in respect of buildings not rented and yielding to income, at 10 per cent of the estimated gross annual rent		1,01,42,125
	Gross annual income chargeable to contribution		2,84,18,00,593
	Amount of contribution computed at the rate fixed under the sub-section (1) of section 58 and payable 2% of Gross annual income chargeable to contribution		5,68,36,012

"Certified that while claiming deductions admissible under the above Schedule, we have not claimed any amount twice, either wholly or partly, against any of the items mentioned in the Schedule which have the effect of double deduction."

For NEIA TRUST

S. Ambastha
22/09/25

(Sristiraj Ambastha)
Chairman Trustee

S. Kumar Das
22/09/25

(Sibir Kumar Das)
Managing Trustee

Harsha Bangari

(Harsha Bangari)
Trustee

As per our report of even date,
FOR BANSILAL SHAH & CO.
Chartered Accountants
Firm Regn. No. 000384W

D. Shah
Partner - M. No. 223609

Date : 22/09/2025
Place : Mumbai



दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एन ई आई ए ट्रस्ट

क. पृष्ठभूमि

1. इस ट्रस्ट का गठन मध्यम एवं दीर्घावधि उच्च मूल्य परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है, जो वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य हों तथा राष्ट्रीय हित की दृष्टि से वांछनीय हों, जहां पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध नहीं हो अथवा उसकी लागत बहुत अधिक हो तथा अल्पावधि निर्यात के लाभ के लिए भी उपयुक्त हो। ट्रस्ट डीड के अनुसार, ट्रस्ट द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अन्य निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा जारी संकल्प संख्या 616/2009-ई एंड एम डी ए, दिनांक-12.2.2009 के अंतर्गत एक और उद्देश्य जोड़ा गया था जिसके अनुसार (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम एस एम ई) निर्यातकों एवं ईसीजीसी द्वारा लिखित वस्त्र, आभूषण आदि जैसे कुछ निर्दिष्ट ट्रेडों के गैर-एम एस एम ई निर्यातकों को 5 प्रतिशत का अतिरिक्त रक्षा प्रदान किया जाना है। (2) ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) के अंतर्गत आने वाले बैंकों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त रक्षा।
2. एन ई आई ए ट्रस्ट को सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में पब्लिक ट्रस्ट पंजीकरण कार्यालय, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र, मुंबई में 8 मई, 2006 को पंजीकृत किया गया है, जिसका पंजीकरण संख्या: - ई 23382 है, जो 21 मार्च, 2006 के ट्रस्ट डीड एवं 8 मार्च, 2010 के संशोधित ट्रस्ट डीड के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा ईसीजीसी लिमिटेड के मध्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पावधि निर्यात के लिए लाभ की योजना को बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 की धारा 50 ए के अंतर्गत योजना आवेदन संख्या 7/2010 में चैरिटेबल ट्रस्ट के सहायक आयुक्त के आदेश के अनुसार निपटान किया गया है।
3. ट्रस्ट कार्यालय, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा अन्य संबंधित बुनियादी संरचना की स्थापना सहित सभी प्रारंभिक स्थापना लागतें ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान एवं वहन की जाती हैं।

ख. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां:



1. लेखांकन का आधार:

वित्तीय विवरण उपार्जन एवं ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए जाते हैं तथा सभी भौतिक पहलुओं में भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है।

2. अनुमानों का उपयोग:

सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए अनुमान एवं धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों तथा देयता की रिपोर्ट की गई राशि एवं रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम एवं अनुमान के मध्य अंतर उस अवधि में चिह्नित किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/वास्तविक होते हैं।

3. राजस्व मान्यता:

आयकर रिफंड पर ब्याज को छोड़कर ब्याज एवं अन्य आय को उपार्जन आधार पर खाते में लिया जाता है।

4. गारंटी शुल्क (अन्य) लेखांकन:

भारतीय एक्ज़िम बैंक तथा अन्य से प्रदान की गई सहायता के लिए प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष अवधि के लिए आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है।

5. गारंटी शुल्क (ईसीजीसी) लेखांकन:

ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदान की गई सहायता के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क को रक्षा की शेष अवधि के लिए आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है।

6. दावों के कारण देयता:

वर्ष के अंत में बकाया दावों के प्रति देयता ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए दावों के संबंध में एन ई आई ए ट्रस्ट की ईसीजीसी एम एल टी जोखिम साझाकरण योजना के अंतर्गत जोखिम की सीमा तक अधिकतम की जाती है।



7. कराधान का प्रावधान

कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान लेखा अवधि के लिए गणना किए गए कर योग्य लाभ के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, भाग सी के टिप्पण 5,6,7 एवं 14 का संदर्भ लें।

8. प्रशासनिक शुल्क

ट्रस्ट की प्रशासनिक एवं स्थापना लागत तथा इसकी योजना के परिचालन लागत, ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा वहन की जाती है, जिसके लिए वह सकल गारंटी शुल्क के 5% की दर से सेवा शुल्क का पात्र है। ईसीजीसी लिमिटेड को प्रदत्त उक्त शुल्क रक्षा की अवधि में मान्य होते हैं।

ग. खातों का अंश बनने वाले टिप्पणियां:

1. ट्रस्ट बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) में पंजीकृत नहीं है। ट्रस्ट द्वारा पंजीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु आई आर डी ए को पत्र लिखा गया था, परंतु ट्रस्ट को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
2. ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क प्राप्त होने पर कुछ रक्षाओं के लिए ईसीजीसी लिमिटेड को गारंटी दी गई है। इस व्यवस्था की सूचना आई आर डी ए को प्रदान की गई है। वर्ष के दौरान, ट्रस्ट को ईसीजीसी लिमिटेड से कोई गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले वर्षों में ईसीजीसी से प्राप्त कुल गारंटी शुल्क आय में से, वर्तमान वर्ष के लिए ₹1.40 करोड़ आवंटित किए गए थे। यह राशि आय-व्यय खाते में पृथक रूप से दर्शाई गई है।
3. बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 की धारा 58 के प्रावधानों के अंतर्गत, ट्रस्टों को अधिनियम की अनुसूची IXC के अंतर्गत दर्शाई गई आय का 2% की दर से पब्लिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान किया जाना आवश्यक है। वर्षों से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित दावों, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किए जाते थे। प्रथा के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष में इन प्रावधानों को प्रत्यावर्तित किया गया तथा यदि कोई नया प्रावधान किया गया तो उसे तैयार किया गया। इस प्रकार के प्रत्यावर्तन ट्रस्ट के आय एवं व्यय खाते के ऋण पक्ष के अंश थे, इसलिए 2% की दर से सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि



में योगदान भी प्रत्यावर्तित प्रावधान राशि पर प्रदान किया जा रहा था। वर्तमान वर्ष के दौरान, ₹ 90.49 करोड़ की राशि के सभी प्रावधानों को वापस लिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ट्रस्ट की वास्तविक आय सृजन नहीं किया जाता है। जहां तक एन ई आई ए ट्रस्ट का संबंध है, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक उनके पास ₹90.49 करोड़ के उपरोक्त प्रत्यावर्तन के पश्चात सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि (वर्तमान वर्ष के ₹ 5.68 करोड़ के प्रावधान सहित) को देय ₹ 80.70 करोड़ का प्रावधान है। हालाँकि, इस प्रकार के योगदान के लिए कोई वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है, क्योंकि इस प्रकार के योगदान के संबंध में राज्य सरकार के दिनांक 16/07/2025 आदेश के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार लंबित हैं।

4. एन ई आई ए ट्रस्ट द्वारा मोकुल श्रीराम ई पी सी जे वी (पॉलिसी संख्या एस सी पी (सी आर एल/सी) 1421/12 एवं एस सी पी (सी आर) 1422/12, जो एन ई आई ए ट्रस्ट की ईसीजीसी एम एल टी जोखिम साझाकरण योजना के अंतर्गत 75% जोखिम साझाकरण के साथ जारी की गई थी) के अस्वीकृत दावों के संबंध में ईसीजीसी द्वारा किए गए कानून संबंधी व्ययों के अपने 75% अंश के लिए दिनांक 31.03.2024 तक ₹3.07 करोड़ प्रदान किए गए थे, जो वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमे के अधीन है। चूंकि, ईसीजीसी द्वारा कोई मांग नहीं की गई है, इसलिए वर्ष के दौरान प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है एवं आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

5. (क) आयकर मूल्यांकन अवलोकन

- निर्धारण वर्ष 2009-2010 तक: ट्रस्ट का आयकर मूल्यांकन बिना किसी समायोजन के पूर्ण किया गया।
- निर्धारण वर्ष 2010-2011 से 2017-18 एवं 2019-20: मूल्यांकन अधिकारी (ए ओ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अंतर्गत दावा की गई छूट को यह तर्क देते हुए अस्वीकार किया गया कि दिनांक 01.04.2009 से "धर्मार्थ उद्देश्य" की परिभाषा में संशोधन के पश्चात ट्रस्ट के उद्देश्य धर्मार्थ नहीं थे।
- निर्धारण वर्ष 2018-19, 2022-23 एवं 2023-24: ए ओ द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों को धर्मार्थ मानते हुए धारा 11 के अंतर्गत छूट की अनुमति प्रदान की गई।
- निर्धारण वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2024-25: ट्रस्ट की रिटर्न में दिखाई गयी आय को बिना किसी जांच मूल्यांकन के स्वीकार किया गया।



(ख) इस तथ्य के बावजूद कि ट्रस्ट धारा 11 के अंतर्गत छूट के लिए पात्र है, क्योंकि इसका उद्देश्य "सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना" है, सावधानी के तौर पर, यह निर्धारण वर्ष 2015-16 से निर्धारण वर्ष 2025-26 तक अपनी आय गणना के आधार पर अग्रिम कर का भुगतान किया जा रहा है।

(ग) निर्धारण वर्ष 2010-11 से वर्षवार आयकर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

नि व	विवरण
2010-11 से 2017-18 एवं 2019-20	आई टी ए टी द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में फैसला सुनाया है, परंतु विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई है, जो कि प्रवेश-पूर्व चरण में है।
2018-19	दिनांक 19.04.2021 के मूल्यांकन आदेश के अंतर्गत धारा 11 में छूट की अनुमति प्रदान की गई।
2020-21	धारा 11 के अंतर्गत छूट दी गई क्योंकि इसमें जांच मूल्यांकन नहीं किया गया।
2021-22	धारा 11 के अंतर्गत छूट दी गई क्योंकि इसमें जांच मूल्यांकन नहीं किया गया।
2022-23	दिनांक 08.03.2024 के मूल्यांकन आदेश द्वारा धारा 11 छूट की अनुमति प्रदान की गई।
2023-24	दिनांक 19.03.2025 के मूल्यांकन आदेश द्वारा धारा 11 के अंतर्गत छूट की अनुमति प्रदान की गई।
2024-25	धारा 11 के अंतर्गत छूट दी गई क्योंकि इसमें जांच मूल्यांकन नहीं किया गया।

(घ) मांगों के विरुद्ध प्राप्त/समायोजित रिफंड के साथ प्रदत्त आयकर के समाधान के दौरान, यह पाया गया कि ₹20.94 करोड़ की राशि को पिछले वर्षों में जमा की गई मांग/टी डी एस के लिए समायोजित किया गया था, परंतु इसे आय के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, जिसे अब वर्तमान वर्ष के वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार, दिनांक 31.03.2025 तक उपयोग हेतु कोई शेष राशि संचयित नहीं है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वर्ष के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2) के प्रावधानों के अनुसार कोई संचय आवश्यक नहीं है।



7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 के प्रावधानों के अनुसार, आयकर के लिए कोई प्रावधान किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
8. लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक में ₹ 1,00,000 (जी एस टी को छोड़कर) का लेखा परीक्षा शुल्क एवं ₹ 25,000 (जी एस टी को छोड़कर) का कर लेखा परीक्षा शुल्क शामिल है।
9. ट्रस्ट के लिए विशेष रूप से किए गए व्यय जैसे परामर्श शुल्क, कानून संबंधी शुल्क, विविध व्यय तथा मुद्रण एवं स्टेशनरी, जिनके लिए ट्रस्ट के नाम पर चालान भी प्राप्त हुए हैं, को इसके आय एवं व्यय खाते में डेबिट किया गया है।
10. वर्तमान वर्ष के दौरान, सावधि जमा पर ₹ 100.02 करोड़ की ब्याज आय, आय एवं व्यय खाते में उपार्जन आधार पर दर्ज की गई है, हालांकि ट्रेसेस (टी डी एस समाधान विश्लेषण एवं संशोधन सक्षम प्रणाली) के 26ए एस के अनुसार ₹ 99.61 करोड़ की ब्याज आय परिलक्षित होती है। यह अंतर इस तथ्य के कारण है कि प्रत्येक बैंक स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) के लिए ब्याज राशि की गणना एवं रिपोर्टिंग के लिए अलग-अलग पद्धति अपनाया जाता है।
11. वि व 2024-25 के दौरान, एन ई आई ए ट्रस्ट के साथ जोखिम साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत जारी रक्षा के अंतर्गत ईसीजीसी द्वारा प्रदत्त दावों के संबंध में ईसीजीसी को ₹ 72.42 करोड़ की प्रतिपूर्ति को मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, ज़ाम्बिया में सुविधा के लिए बी सी-एन ई आई ए रक्षा के अंतर्गत ₹130.32 करोड़ की दावा राशि स्वीकृत की गई। हालाँकि, धन की कमी के कारण वर्ष के दौरान किसी भी दावे का भुगतान नहीं किया गया।
12. सी ओ डी द्वारा ₹1,799.83 करोड़ के दावों को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें ट्रस्ट के साथ जोखिम-साझाकरण व्यवस्था के अंतर्गत जारी एम एल टी रक्षा के अंतर्गत ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त दावों के अंश के लिए वि व 2024-25 के दौरान स्वीकृत ₹202.74 करोड़, साथ ही बी सी-एन ई आई ए रक्षा के अंतर्गत इंडिया एक्जिम बैंक को देय दावा शामिल है। सी ओ डी की मंजूरी के पश्चात, वि व 2024-25 के दौरान लंबित दावों के लिए ₹124.07 करोड़ का प्रावधान वापस लिया गया है, जिसमें एन ई आई ए ट्रस्ट की ईसीजीसी एम एल टी जोखिम-साझाकरण योजना के अंतर्गत जारी रक्षा के अंतर्गत लंबित दावों के लिए पूर्व में किए गए ₹110.75 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान शामिल हैं।



13. वि व 2015-16 से वि व 2023-24 तक के वित्तीय विवरण चैरिटी कमिश्नर, मुंबई के कार्यालय में विधिवत दाखिल किए गए हैं।

14. दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आकस्मिक देयता ₹ 9520.07 करोड़ है, जिसमें ₹ 2,332.69 करोड़ के जोखिम मूल्य रक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा ईसीजीसी लिमिटेड को दी गई गारंटी, ₹ 6,169.89 करोड़ (₹ 9,572.56 करोड़ का जोखिम मूल्य रक्षा) की बकाया राशि के लिए एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया को दी गई गारंटी एवं ₹ 611.98 करोड़ की कुल आयकर देयता (निम्न तालिका के अनुसार) शामिल है, जहां अपील माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवेश-पूर्व चरण में हैं। ₹ 9520.07 करोड़ की आकस्मिक देयता में रक्षा संख्या 1421/12 एवं 1422/12 के लिए दावे हेतु ₹402.31 करोड़ एवं कानून संबंधी शुल्क हेतु ₹3.20 करोड़ की राशि भी शामिल है। रक्षा संख्या 1421/12 एवं 1422/12, ईसीजीसी द्वारा एन ई आई ए ट्रस्ट की ईसीजीसी एम एल टी जोखिम साझाकरण योजना के अंतर्गत 75% जोखिम साझाकरण के साथ जारी किए गए थे। रक्षा संख्या 1421/12 एवं 1422/12 के अंतर्गत दावों को अस्वीकार किया गया एवं तत्पश्चात ईसीजीसी द्वारा रक्षा बंद किए गए। वर्तमान में, रक्षा संख्या 1421/12 एवं 1422/12 के अंतर्गत दावों से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है।

क्र. सं.	नि व	₹ करोड़ में
1	2010-11	72.80
2	2011-12	70.84
3	2012-13	36.89
4	2013-14	37.59
5	2014-15	46.97
6	2015-16	47.74
7	2016-17	62.44
8	2017-18	65.46
9	2019-20(*)	171.25
	कुल	611.98

(*) धारा 143(3) आर.डब्ल्यू.एस 263, दिनांक 28.03.2025 के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश के अनुसार।



15. दावा भुगतान एवं प्रावधानों के कारण, दिनांक 31.03.25 तक ट्रस्ट का कोष समाप्त हो गया है। तथापि, वर्तमान समग्र देयता धारणा सीमा, कॉर्पस की 20 गुना है तथा भारत सरकार ट्रस्ट की स्थापनाकर्ता है, इसलिए ट्रस्ट के खाते गोइंग कंसर्न के आधार पर तैयार किए गए हैं।

कृते एन ई आई ए ट्रस्ट

हस्ताक्षरित

(सृष्टिराज अम्बष्ठ)

अध्यक्ष ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(सुबीर कुमार दास)

प्रबंध ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(हर्षा बंगारी)

ट्रस्टी

दिनांक: 22/09/2025

स्थान: मुंबई



NEIA TRUST FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2025

A. BACKGROUND

1. The trust is formed with the objective to ensure the availability of credit risk cover for the medium- and long-term high value projects which are commercially viable and desirable from the point of view of national interest where reinsurance cover is not available or its cost is very high and also for the benefit of short -term exports. As per the Trust Deed, the trust is also required to follow any other instructions as given by the Government of India from time to time. Accordingly, the Govt. of India (GOI) had vide Resolution No.616/2009-E&MDA dated 12.2.2009 added one more object as per which (1) additional cover of 5 per cent to be provided to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) exporters and also Non-MSME exporters of certain specified trades like Textiles, Jewelry, etc. underwritten by ECGC. (2) Additional cover of 10 per cent to banks who are covered under Export Credit Insurance for Banks (ECIB) underwritten by ECGC Ltd.
2. The NEIA trust has been registered as a Public trust with the Public Trusts Registration Office, Greater Mumbai Region, Mumbai on 8th May, 2006 with registration no: - E 23382 vide trust deed dated 21st March, 2006 and modified trust deed dated 8th March, 2010 entered into between The President of India, acting through the Joint Secretary, Dept. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the ECGC Limited. Further, scheme for benefit for short term export has been settled u/s 50A of the Bombay Public Trust Act, 1950 as per order of Assistant Commissioner of Charitable Trust in Scheme Appl. No 7/2010.
3. All the initial setting up costs including setting up of the trust office, computer hardware and software and other related infrastructure are provided and borne by ECGC Limited.

B. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1. Basis of Accounting:

The Financial statements are prepared on accrual basis on historical cost convention and comply in all material aspects with the accounting principles accepted in India.



2. **Use of estimates:**

The presentation of financial statements in conformity with the generally accepted accounting principles requires estimates and assumptions to be made that affects the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenue and expenses during the reported period. Differences between the actual result and estimates are recognized in the period in which the results are known / materialized.

3. **Revenue Recognition:**

Interest and other income is accounted on accrual Basis except for interest on Income tax refund.

4. **Guarantee Fee (Others) Accounting:**

Guarantee fees from Exim Bank of India and others received towards support provided is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

5. **Guarantee Fees (ECGC) Accounting:**

Guarantee fees received during the year towards the support provided to ECGC Limited is apportioned proportionately for the remaining period of cover.

6. **Liability on account of claims:**

Liability towards outstanding claims at the end of the year is made in respect of the claims provided for by ECGC Limited maximum to the extent of exposure under ECGC MLT risk sharing scheme of the NEIA Trust.

7. **Provision for Taxation**

Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. However, refer note 5,6,7 and 14 of Part C.

8. **Administrative Charges**

The administrative & establishment costs of the trust and cost of administering its scheme is borne by ECGC Limited against which it is entitled for service charges at 5% of the gross



guarantee fees. The said charges paid to ECGC Limited are recognized over the period of the cover.

C. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS:

1. The Trust is not registered with the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). The Trust had written to the IRDA for seeking clarifications regarding registration but no communication is received by the Trust in these regards.
2. The Trust has given Guarantee to ECGC Limited for a few covers on receipt of Guarantee Fee. This arrangement has been notified to IRDA. During the year, Trust has not received Guarantee Fee from ECGC Limited. Out of the total guarantee fee income received from ECGC in earlier years, ₹1.40 crore had been allocated for current year. This amount has been shown separately in the Income & Expenditure account.
3. Under provisions of section 58 of Bombay Public Trust Act 1950, Trusts are required to make contribution to Public Trust Administration Fund @ 2% of the Income shown under Schedule IXC of the Act. Throughout the years, provisions had been created at the end of each financial year to account for pending claims, if any. As a practice, these provisions were reversed in the subsequent financial year, and fresh provisions, if any, were created. Since such reversals formed part of the credit side of the Income and Expenditure account of the Trust, The Contributions to the Public Trust Administration Fund @ 2% were being provided on the reversed provision amounts as well. During the current year, all such provisions, amounting to ₹ 90.49 crore, have been reversed as they do not constitute actual income of the Trust. In so far as NEIA trust is concerned, as on March 31, 2025 it holds provision amounting to ₹ 80.70 crore payable to the Public Trust Administration Fund (including current year provision of ₹ 5.68 crore) after above reversal of ₹ 90.49 crore. However, no actual payment towards such contribution is made, since orders from State Government pertaining to levy of such contribution is pending, in accordance with the High Court order dated 16/07/2025.
4. NEIA Trust had provided ₹3.07 crore as of 31.03.2024 towards its 75% share of legal expenses incurred by ECGC in connection with the rejected claims of Mokul Shriram EPC



JV (Policy Nos. SCP (CR L/C) 1421/12 and SCP (CR) 1422/12 issued with 75% risk sharing under ECGC MLT risk sharing scheme of the NEIA Trust), currently under litigation before the Hon'ble Supreme Court. As no demand has been raised by ECGC, the provision has been reversed during the year and disclosed as a contingent liability

5. (a) Income Tax Assessment Overview

- Up to AY 2009-2010: The Trust's income tax assessments were completed without any adjustments.
- AY 2010-2011 to 2017-18 and 2019-20: The Assessing Officer (AO) denied the exemption claimed under Section 11 of the Income Tax Act, 1961, arguing that the Trust's objects were not charitable after the definition of "charitable purpose" was amended from 01.04.2009.
- AY 2018-19, 2022-23 and 2023-24: The AO allowed the exemption under Section 11, recognizing the Trust's objects as charitable.
- AY 2020-21, 2021-22 and 2024-25: The Trust's income was accepted as returned without any scrutiny assessment.

(b) Despite the fact that the Trust is eligible for the exemption u/s 11 as having object in the nature of "advancement of the objects of general public utility", as a precaution, it has been paying advance tax based on its income computations from AY 2015-16 to AY 2025-26.

(c) The status of year-wise Income Tax assessments since AY 2010-11 is as under:

AY	Particulars
2010-11 to 2017-18 and 2019-20	ITAT has ruled in favour of the Trust, but the Department has filed appeals before the High Court, which are at pre-admission stage.
2018-19	Section 11 exemption allowed vide assessment order dated 19.04.2021.
2020-21	Exemption under Section 11 allowed as no scrutiny assessment.
2021-22	Exemption under Section 11 allowed as no scrutiny assessment.
2022-23	Section 11 exemption allowed vide assessment order dated 08.03.2024.
2023-24	Section 11 exemption allowed vide assessment order dated 19.03.2025.
2024-25	Exemption under Section 11 allowed as no scrutiny assessment.



(d) During the reconciliation of income tax paid with refunds received/adjusted against demands, it was observed that an amount of ₹20.94 crore had been adjusted against demand/TDS credited in earlier years but had not been recognized as income, which has now been accounted for in the current year's financial statements.

6. In terms of the provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961, there is no balance accumulation for utilization as on 31.03.2025. Further, for the current year, there is no accumulation required in terms of the provisions of Section 11(2) of the Income Tax Act, 1961.
7. In accordance with the provisions of section 11 to 13 of the Income Tax Act, 1961, no provision for income tax is required to be made.
8. Auditor's remuneration includes Audit Fees of ₹ 1,00,000 (excluding GST) and tax audit fees of ₹ 25,000 (excluding GST).
9. Expenses specifically incurred for the Trust such as Consulting Charges, Legal Charges, Miscellaneous Expenses and Printing & Stationery for which invoices have also been received in the name of the Trust have been Debited to its Income & Expenditure Account.
10. During the current year, interest income of ₹ 100.02 Crore on fixed deposits is booked on the accrual basis in Income and Expenditure Account, though as per 26AS of TRACES (TDS Reconciliation Analysis and Correction Enabling System) interest income of ₹ 99.61 Crore is reflected. The difference is due to the fact that each bank adopts different methodology for calculating and reporting the interest amount for deduction of tax at source (TDS).
11. During the FY 2024-25, reimbursement of ₹ 72.42 crore was approved to ECGC in respect of the claims paid by ECGC under the covers issued under the risk sharing arrangement with the NEIA Trust. Further, a claim amount of ₹ 130.32 crore was approved under the BC-NEIA cover for facility in Zambia. However, no claims were paid during the year due to paucity of funds.



12. COD has approved claims amounting to ₹1,799.83 crore, which includes ₹202.74 crore approved during FY 2024-25 towards the share of claims paid by ECGC Limited under MLT covers issued under the risk-sharing arrangement with the Trust, as well as the claim payable to India Exim Bank under the BC-NEIA Cover. Following the COD's approval, provision of ₹124.07 crore towards pending claims has been reversed during FY 2024-25, which includes ₹110.75 crore of excess provision earlier made towards pending claims under covers issued under the ECGC MLT risk-sharing scheme of the NEIA Trust.
13. The financial statements from FY 2015-16 to FY 2023-24 have been duly filed with the office of Charity Commissioner, Mumbai.
14. The Contingent Liability as at March 31, 2025 amounts to ₹ 9520.07 Crore which includes Guarantees given by the Trust to ECGC Limited for risk value cover of Rs 2,332.69 crore, Guarantees given to EXIM Bank of India for outstanding amount of cover of ₹ 6,169.89 Crore (Risk Value cover of ₹ 9,572.56 crore) and aggregate Income Tax liability of ₹ 611.98 crores (as per the table below) where the appeals are at pre-admission stage before the Hon. Bombay High Court. The Contingent Liability of ₹ 9520.07 Crore also includes an amount of Rs 402.31 crore towards claim and Rs 3.20 crore towards legal charges against the cover Nos. 1421/12 & 1422/12. Cover Nos. 1421/12 & 1422/12 were issued by ECGC with 75% risk sharing under ECGC MLT risk sharing scheme of the NEIA Trust. The claims under cover Nos. 1421/12 & 1422/12 were rejected and subsequently covers were closed by ECGC. At present, the issue pertaining to claims under cover Nos. 1421/12 & 1422/12 is pending at Court.


Sr. No.	AY	₹ in crores
1	2010-11	72.80
2	2011-12	70.84
3	2012-13	36.89
4	2013-14	37.59
5	2014-15	46.97
6	2015-16	47.74
7	2016-17	62.44
8	2017-18	65.46
9	2019-20(*)	171.25
	Total	611.98

(*) As per Order of assessment u/s 143(3) r.w.s 263 dated 28.03.2025




15. Due to the claim payments and provisions, the Corpus of the Trust has been eroded as on 31.03.25. However, as the current aggregate liability assumption limit is 20 times the Corpus and the Government of India is the settlor of the Trust, the accounts of the Trust have been prepared on a Going Concern Basis.

For NEIA TRUST


(Sristiraj Ambastha)
Chairman Trustee


(Subir Kumar Das)
Managing Trustee


(Harsha Bangari)
Trustee

Date: 22/09/2025

Place: Mumbai

UDIN: 25223609BM18XM5224



पावती संख्या: 888218380300925

फॉर्म संख्या 10 बी

[नियम 16 सी सी एवं 17 बी देखें]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23 सी) के दसवें परंतुक के खंड (बी) एवं धारा 12 ए की उपधारा (1) के खंड (बी) के उपखंड (ii) के अंतर्गत किसी फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थान अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्थान के मामले में लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमारे द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 तक एन ई आई ए ट्रस्ट [फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा किसी अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था का नाम] की तुलन पत्र की जांच की गई है एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता अथवा लाभ तथा हानि खाता उक्त फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा लेखा बही के अनुरूप खातों तैयार किए गए हैं।

हमारे द्वारा अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए हैं, जो लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हैं। हमारी राय में, उपर्युक्त फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था के पंजीकृत कार्यालय में अनुलग्नक के क्रम संख्या 14 में उल्लिखित पते पर उचित लेखा बही अनुरक्षित किया गया है।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, अनुलग्नक में प्रदान किए गए विवरण निम्नलिखित टिप्पणियों (क)

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, तथा हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार, उक्त खाते सही एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं-



- (i) तुलन पत्र के मामले में, दिनांक 31 मार्च 2025 तक उपर्युक्त फंड अथवा ट्रस्ट अथवा संस्था अथवा विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल अथवा अन्य चिकित्सा संस्था की स्थिति; एवं
- (ii) आय एवं व्यय खाते अथवा लाभ एवं हानि खाते के मामले में, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष की आय एवं आवेदन अथवा लाभ अथवा हानि।

निम्नलिखित टिप्पणियों/योग्यताओं के अधीन-
(क)

निर्धारित विवरण इसके साथ संलग्न है।

सनदी लेखाकार का नाम

सदस्यता संख्या

फर्म पंजीकरण संख्या

पता

आई पी पता

स्थान

दिनांक

हस्ताक्षरित

ध्रुव शाह

ARCA223609

0000384W

1027, 10वीं मंजिल, हबटाउन सोलारिस, एन एस फड़के रोड, साईवाड़ी, एन आर गोखले फ्लाइओवर,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400069

103.180.178.227

मुंबई

29 सितंबर 2025



part - 2 - 25

Acknowledgement Number: 888218380300925

FORM NO. 10B

[See rule 16CC and 17B]

Audit report under clause (b) of the tenth proviso to clause (23C) of section 10 and sub-clause (ii) of clause (b) of subsection (1) of section 12A of the Income-tax Act, 1961, in the case of a fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution.

We have examined the balance sheet of NEIA TRUST [name of the fund or trust or institution or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution] as at 31-Mar-2025 and the Income and Expenditure account or Profit and Loss account for the year ended on that date are in agreement with the books of account maintained by the said fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution.

We have obtained all the information and explanations to the best of our knowledge and belief which are necessary for the purposes of the audit.

In our opinion, proper books of account have been maintained at the registered office of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution at the address mentioned at serial number 14 of the Annexure:

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the particulars given in the Annexure are true and correct subject to following observations or qualifications-

(a)

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named fund or trust or institution or university or other educational institution or hospital or other medical institution as on 31-Mar-2025; and

(ii) in the case of the Income and Expenditure account or Profit and Loss account, of the income and application or profit or loss of its accounting year ending on 31-Mar-2025.

Subject to the following observations/qualifications-

(a)

The prescribed particulars are annexed hereto.

Name of Chartered Accountant

Membership Number

Firm Registration Number

Address

IP Address

Place

Date

Dhruv Shah

ARCA223609

0000384W

1027, 10th Floor, Hubtown Solaris, NS Phadake Road, Saiwadi, Nr. Gokhle flyover,

Andheri (East), Mumbai - 400069

103.180.178.227

Mumbai

29-Sep-2025



ANNEXURE
Statement of particulars

Basic Details	1.	PAN of the auditee	AAATN9999F		
	2.	Name of the auditee	NEIA TRUST		
	3.	Assessment year	2025-26		
	4.	Previous year	01-APR-2024 to 31-MAR-2025		
	5.	Registered Address of the auditee	EGGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1 to 45, M.V. Road, Andheri (West), Mumbai ? 400069		
	6.	Other addresses, if applicable			
	7.	Type of the auditee	Trust		
	8.	Whether the auditee is established under an instrument	Yes		
	9.	Details of registration/provisional registration or approval/ provisional approval or notification of the auditee under the Income-tax Act (Details of all the registration/provisional registration/approval/ notification which are valid during the previous year should be provided, however where the auditee has got the registration/ approval after provisional registration/ approval the details of provisional registration/ approval need not be provided)			
Registration Details	Section under which registered/provisionally registered or approved/ provisionally approved / notified		Date of registration/provisional registration or approval/ notification		Date from which registration/provisional registration/approval/ provisional approval/ notification is effective
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Management	Clause (a) of sub-section (1) of section 12AB of the Act		AAATN9999FE20070		Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax
	24-Sep-2021				01-Apr-2021
10.	(a)	Details of all the Author (s)/ Founder (s)/ Settlor (s)/Trustee (s)/Trustee (s)/Members of the Governing Council/ Director (s)/ shareholders holding 5% or more of shareholding / Office Bearer (s) of the auditee at any time during the previous year			




Acknowledgement Number:88218380300925

S. No.	Name of person	Relation	Percentage of shareholding in case of shareholder	Unique Identification Number	ID Code	Address	Whether there is any change in relation during previous year of audit	If yes, specify the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Shri. Subir Kumar Das	Trustee		ADM7878G	PAN	ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1-45, M.V. Road, Andheri East, Andheri East, Mumbai, Maharashtra, INDIA, 400069	Yes	Transfer and promotion of officials
2.	Shri Siddharth Mahajan	Trustee		AGYPM4764D	PAN	Department of Commerce, Government of India, Udyog Bhavan, Udyog Bhavan, Udyog Bhavan, New Delhi, Delhi, INDIA, 110011	No	
3.	Shri Sritiraj Ambastha	Trustee		AASPA9342B	PAN	ECGC Bhawan, CTS No. 393, 393/1-45, M.V. Road, Andheri (East), Andheri (East), Mumbai, Maharashtra, INDIA, 400069	No	
4.	Ms. Harsha Bangari	Trustee		AABPB2068A	PAN	Export-Import Bank of India Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Cuffe Parade, Mumbai, Maharashtra, INDIA, 400005	No	


(b) In case if any of the persons [as mentioned in row 10(a)] is not an individual, then provide the following details of the natural persons who are beneficial owners (5% or more) of such person at any time during the previous year.

Sl. No.	Name	Unique Identification Number	ID code	Address	Non-individual person [as mentioned in row no. 10(a)] in which beneficial ownership held	Percentage of beneficial ownership	Whether there is any change during previous year of audit	If yes, specify the change
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No Records Available								

11.	Objects of the auditee	Advancement of any other objects of general public utility
12.	(i) Whether the auditee, being a trust or institution referred to in section 11 or 12, has adopted or undertaken modification of the objects which do not conform to the conditions of registration?	No
	(ii) If yes, please furnish following information:-	



		<p>(A) Date of such modification/ adoption</p>																
		<p>(B) Whether an application for registration has been made in the prescribed form and manner within the stipulated period of thirty days from the date of said adoption or modification, as per sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A.</p>																
		<p>(C) If yes provide the following details regarding application for registration under sub-clause (v) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A</p> <table border="1" data-bbox="965 542 1260 1774"> <thead> <tr> <th data-bbox="973 542 1013 705">S. No.</th> <th data-bbox="973 705 1013 1064">Date of Application</th> <th data-bbox="973 1064 1013 1344">Status of registration in pursuance of application</th> <th data-bbox="973 1344 1013 1769">Date of Registration or cancellation based on such application</th> <th data-bbox="973 1769 1013 2056">URN of such registration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1013 542 1053 705">(1)</td> <td data-bbox="1013 705 1053 1064">(2)</td> <td data-bbox="1013 1064 1053 1344">(3)</td> <td data-bbox="1013 1344 1053 1769">(4)</td> <td data-bbox="1013 1769 1053 2056">(5)</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="1053 542 1260 1774" style="text-align: center;">No Records Available</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Date of Application	Status of registration in pursuance of application	Date of Registration or cancellation based on such application	URN of such registration	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	No Records Available					
S. No.	Date of Application	Status of registration in pursuance of application	Date of Registration or cancellation based on such application	URN of such registration														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)														
No Records Available																		
Commencement of activities	13.	(i)	Where the auditee has been granted provisional registration or provisional approval, whether activities have commenced during the previous year	No														
		(ii)	If yes in 13 (i) , date of commencement of activities															
		(iii)	If the answer to 13(i) is yes, whether application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (iii) of the first proviso to clause (23C) of section 10 has been filed?															
		(iv)	If yes in 13(iii) above, provide the following details regarding application for registration under section sub-clause (iii) of clause (ac) of sub-section (1) of section 12A or application for approval under clause (ii) of the first proviso to Clause (23C) of section 10 has been filed?															
Details of Place where books of accounts and other documents have been maintained			<table border="1" data-bbox="510 542 909 1680"> <thead> <tr> <th data-bbox="518 542 558 705">S. No.</th> <th data-bbox="518 705 558 1064">Date of Application</th> <th data-bbox="518 1064 558 1344">Status of registration in pursuance to application</th> <th data-bbox="518 1344 558 1668">Date of Registration /Cancellation based on such application</th> <th data-bbox="518 1668 558 2056">URN of such registration</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" data-bbox="558 542 909 1668" style="text-align: center;">No Records Available</td> </tr> </tbody> </table>	S. No.	Date of Application	Status of registration in pursuance to application	Date of Registration /Cancellation based on such application	URN of such registration	No Records Available									
	S. No.	Date of Application	Status of registration in pursuance to application	Date of Registration /Cancellation based on such application	URN of such registration													
No Records Available																		
		<p>(i) Whether the books of account and other documents have been kept and maintained in the form and manner and at such place as prescribed under rule 17AA by the auditee</p> <p>(ii) Provide the following details of the books of account and other documents</p>	<p>Yes</p>															



S. No.	Nature of Books of Account	Whether maintained by the auditee	Whether maintained in a computer system	Whether maintained at registered office	If maintained at any place other than the registered place			Whether the books of account have been audited
					Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Whether intimated to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (3) of rule 17AA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Cash book	Yes	Yes	Yes				Yes
2.	Ledger	Yes	Yes	Yes				Yes
3.	Journal	Yes	Yes	Yes				Yes
4.	Copies of bills, whether machine numbered or otherwise serially numbered, wherever such bills are issued by the assessee, and copies of counterfoils of machine numbered or otherwise serially numbered receipts issued by the assessee	Yes	Yes	Yes				Yes
5.	Original bills wherever issued to the person and receipts in respect of payments made by the person	Yes	Yes	Yes				Yes
6.	Any other book that may be required to be maintained in order to give a true and fair view of the state of the affairs of the person and explain the transactions affected	Yes	Yes	Yes				Yes
7.	Record of income of the person during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(ii)	Yes	Yes	Yes				Yes
8.	Record of application of income out of the income of any	Yes	Yes	Yes				Yes



S. No.	Nature of Books of Account	Whether maintained by the auditee	Whether maintained in a computer system	Whether maintained at registered office	If maintained at any place other than the registered place				Whether the books of account have been audited
					Address of such Place	Date of decision by management to keep account at such place	Whether intimated to Assessing Officer that books of accounts are kept at such place under proviso to sub-rule (3) of rule 17AA	Date of intimation to Assessing Officer	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8a)	(9)
9.	Record of voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus, as per rule 17AA(1)(d)(v)	Yes	Yes	Yes					Yes
10.	Record of specified persons as per rule 17AA(1)(d)(ix);	Yes	Yes	Yes					Yes
11.	Record of application of income etc. out of income during the previous year as per rule 17AA(1)(d)(iii)	Yes	Yes	Yes					Yes

15.

Where, in any of the projects/institutions run by auditee, one of the charitable purposes is advancement of any other object of general public utility then,-

(A)	Whether any activity is being carried on by the auditee which is in the nature of trade, commerce or business referred to in proviso to clause (15) of section 2?	No
(B)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts	%
(C)	Whether such activity in the nature of trade, commerce or business is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility	
(D)	Whether there is any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business for any consideration as referred to in proviso to clause (15) of section 2?	No
(E)	If yes, then percentage of receipt from such activity vis-à-vis total receipts	%
(F)	Whether such activity of rendering service is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility	

Advancement of General Public Utility



Acknowledgement Number:888218380300925

16.		If 'A' or 'D' in 15 is Yes, the aggregate annual receipts from such activities in respect of that project/institution	
S. No.	Name of Project/ Institution	Amount of aggregate annual receipts from activities referred in 15A and 15D (In Rs.)	
	(1)	(2)	(3)
Total			0
No Records Available			
17.	Business Undertaking	Whether the auditee has any business undertaking as referred to in sub-section (4) of section 11	No
(ii)		If yes, then provide the following details of the business undertaking:	
(a)	Nature of Business Undertaking		
(b)	Business code		
(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business undertaking <refer note ^>		
(d)	Income from the business undertaking for the previous year which is not to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11		₹
(e)	Income from the business undertaking for the previous year which is to be included in the total income of the auditee as per sub-section (4) of section 11		₹
18.	Business Incidental to Objects	Whether the auditee has any income being profits and gains from any business as referred in seventh proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (4A) of section 11, as the case may be	No
(ii)		If yes, then provide the following details of such business:	
(a)	Nature of Business		
(b)	Business code		
(c)	Whether separate books of account have been maintained for the business <refer note ^>		
(d)	Whether the business is incidental to the attainment of the objects of the auditee		
(e)	Profits and gains from the business during the previous year		₹




S. No.	Name of the deductor	TAN of deductor	Amount on which tax has been deducted at source (In Rs.)	Amount of tax deducted at source	Section under which tax has been deducted at source	Category of income/receipt				Income/receipt in column 7 or 8 which is from business incidental to the attainment of the objects of the auditee. (In Rs.)	Whether separate books of account have been maintained for activities income/receipt which is mentioned in column 10
						Trade, commerce or business (Rs.)	Activity of rendering any service in relation to any trade, commerce or business (Rs.)	Others (specify the nature) (Rs.)	Specify the nature		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9a)	(10)	(11)
19.	Details of the receipts of the auditee on which tax has been deducted at source referred to in sections 194C or 194J or 194H or 194Q:										
20.	Whether the provisions of twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable. No										
21.	Whether auditee has filed Form No. 10BD for the previous year < If No then skip to row 23 > No										
22.	Total Sum of donations reported in Form No. 10BD furnished by the auditee for the previous year ₹										
23.	Donations not reported in Form No 10BD / Not required to fill Form No. 10BD										
(i)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which is approved under clause (b) of sub-section (2) of section 80G ₹ 0										
(ii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee which qualifies for deduction under section 80G (other than those donations qualifying under clause (b) of sub-section (2) of section 80G or sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G) ₹ 0										
(iii)	Donations received by fund or trust or institution of the auditee approved under sub-clause (iv) of clause (a) of sub-section (2) of section 80G and which are not eligible under sub-section (5) of section 80G										
(a)	Cash donations exceeding Rs 2000 ₹ 0										
(b)	Donations received from other charitable trusts and institution or from any fund or institution or trust or any university or other educational institutions or any hospital or other medical institution not eligible for deduction ₹ 0										
(c)	Others (Specify the nature) ₹										
(d)	Total (a)+(b)+(c) ₹ 0										
(iv)	Donations which could not be reported in Form No 10BD due to non-availability of identification of donor as required under Form No 10BD ₹ 0										
(v)	Donations received in kind ₹ 0										
(vi)	Anonymous Donations referred to in section 115BBC ₹ 0										





Appli

	Electronic(₹)								₹ 0
	Other than electronic(₹)								₹ 0
	Total(₹)								₹ 0
(b)	Object wise application other than the application provided in (a)								
	S. No.								Total (₹)
	(i)	Religious			Electronic (₹)			Other than electronic (₹)	0
	(ii)	Relief of poor			0			0	0
	(iii)	Education			0			0	0
	(iv)	Medical relief			0			0	0
	(v)	Yoga			0			0	0
	(vi)	Preservation of Environment (including watersheds, forests and wildlife)			0			0	0
	(vii)	Preservation of Monuments or Places or Objects of Artistic or Historic interest			0			0	0
	(viii)	Advancement of any other objects of general public utility			0			0	0
	(ix)	Application which cannot be specifically categorized under (i) to (viii)			59,83,75,720			0	59,83,75,720
	(x)	Total			59,83,75,720			0	59,83,75,720
(c)	Total application (a) + (b)(X)								
	Electronic(₹)								₹ 59,83,75,720
	Other than electronic(₹)								₹ 0
	Total(₹)								₹ 59,83,75,720
(ii)	Details of application out of (i) (a) and (i) (b) resulting in payment in excess of Rs. 50 lakh during the previous year to any person								
	S. No.	Name of person to whom amount paid or credited	PAN of such person	Amount of application (Rs.)	Mode of Application		TDS		
	(1)	(2)	(3)	(4)	Electronic modes (Rs.)	Other than Electronic modes (Rs.)	Total	Whether any TDS has been deducted	Section under which TDS has been deducted
					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	No Records Available								
(iii)	Amount which was not actually paid during the previous year [if included in (i)(c)]								
									₹ 6,21,24,971
(iv)	Amount actually paid during the previous year which accrued during any earlier previous year but not claimed as application of income in earlier previous year								
									₹ 10,84,078
(v)	Total amount to be allowed as application [31(i)(c)- 31(iii) +31(iv)]								
									₹ 53,73,34,827
(vi)	Bifurcation of application in 31(v) into Revenue or Capital								
									₹ 53,73,34,827



Acknowledgement Number: 888218380300925


	(a) Revenue	₹ 53,73,34,827
	(b) Capital	₹ 0
(vii)	Amount invested or deposited back in corpus which was applied during any preceding previous year and not claimed as application during that previous year.	₹ 2,32,45,00,000
(viii)	Repayment of loan or borrowing during the previous year which was earlier applied and not claimed as application during that previous year.	₹ 0
Amount to be disallowed from application		
(ix)	Amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-clause (ia) of clause (a) of section 40	₹ 0
(x)	Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) or (3A) of section 40A	₹ 0
	(A) Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A	₹ 0
	(B) Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 to sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A	₹ 0
(xi)	Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv), (v), (vi) or (via) of Clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act towards Corpus	₹ 0
(xii)	Donation to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv), (v), (vi) or (via) of Clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act not having same objects	₹ 0
(xiii)	Donation to any person other than any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv), (v), (vi) or (via) of clause (23C) of section 10 of the Act or any trust or institution referred to in section 11 or 12 of the Act	₹ 0
(xiv)	Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has not been obtained	₹ 0
(xv)	Application outside India for which approval under proviso to clause (c) of sub-section (1) of section 11 has been obtained	₹ 0
(xvi)	Applied for any purpose beyond the objects of the auditee	₹ 0
(xvii)	Any other Disallowance (Please specify)	₹ 0
(xviii)	Total allowable application [(31(v)+31(vii)+31(viii)) - {31(ix) to 31(xvii)}]	₹ 2,86,18,34,827



Acknowledgement Number:888218380300925

					₹ 0
(xix)	Amount deemed to have been applied during the previous year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11				₹ 0
(xx)	Income accumulated as per the provisions of Explanation 3 to the third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (2) of section 11				₹ 0
(xxi)	Income accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes or stated objects of trust or institution to the extent it does not exceed 15 % of the income				₹ 0
32.	Taxable Income [30- {31(xviii) to 31 (xxi)}]				₹ 0
33.	Income taxable under section 115BBI				
(a)	Whether the auditee has any deemed income referred to in sub-section (1B) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	No			₹
(b)	Whether the auditee has any deemed income referred to in Explanation 4 to third proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (3) of section 11 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such deemed income?	No			₹
(i)	Whether income accumulated is applied for the purposes other than charitable or religious purposes or ceases to be accumulated or set apart for application thereto	No			₹
(ii)	Whether such income accumulated ceases to remain invested or deposited in any of the forms or modes specified in sub-section (5) of section 11	No			₹
(iii)	Whether such income accumulated is not utilised for the purpose for which it is so accumulated or set apart during the period referred to in clause (a) of the Explanation 3 to third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (a) of sub-section (2) of section 11	No			₹
(iv)	Whether such income accumulated is credited or paid to any trust or institution registered under section 12AA or section 12AB or to any fund or institution or trust or any university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (iv) or sub-clause (v) or sub-clause (vi) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10	No			₹
(c)	(i) Whether the auditee has any income which is income not to be excluded from the total income under twenty first proviso to clause (23C) of section 10 or clause (c) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	No			₹
(ii)	Whether the auditee has any income which is not to be excluded from the total income under clause (b) of third proviso to clause (23C) of section 10 or clause (d) of sub-section (1) of section 13 which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income	No			₹
(d)	Whether the auditee has any income accumulated or set apart in excess of fifteen percent of the income where such accumulation is not allowed under any specific provision of the Act and which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBI and the amount of such income ?	No			₹

Section 115BBI




Acknowledgement Number: 888218380300925

	(e)	Whether the auditee has made any application out of India which is not excluded from total income under clause (c) of sub-section (1) of section 11	No	₹	
Other Income	34.	Anonymous donation which is chargeable to tax @ 30 % under section 115BBC		₹ 0	
	35.	Whether the auditee has any income chargeable under section 12(2) and the amount of such income.	No	₹	
		Income as per Explanation 3B to sub-section (1) of section 11 in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 3A to sub-section (1) of section 11 read with clause (b) of sub-section (2) of section 80G		₹ 0	
		Income as per Explanation 1B to the third proviso to Clause (23C) of section 10 in case of violation of clause (a) or (b) or (c) or (d) of Explanation 1A to the third proviso to Clause (23C) of section 10 read with clause (b) of sub-section (2) of section 80G		₹ 0	
		Income chargeable under sub-section (4) of section 11		₹ 0	
Capital Asset	36.	Details of Capital Asset Transferred under sub-section (1A) of section 11			
	(1)	Whether a capital asset being property held under trust wholly for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?	No	₹	
	(2)	Whether deemed application is claimed as per clause (a) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?	No	₹	
	(3)	Whether a capital asset being property held under trust in part only for charitable or religious purpose is transferred and the net consideration for which it is transferred?	No	₹	
	(4)	Whether deemed application is claimed as per clause (b) of sub-section (1A) of section 11 and the amount of such deemed application?	No	₹	
Application of income out of different sources	37.	Application of Income out of the following sources during the previous year			
	S. No.	Application of Income out of different sources	Electronic Modes (₹)	other than Electronic Modes (₹)	Total (₹)
	A	Income accumulated under the third proviso to clause (23C) of section 10 or under sub-section (2) of section 11 during any earlier previous year	0	0	0
	B	Income deemed to be applied in any preceding year under clause (2) of Explanation 1 to sub-section (1) of section 11 during any earlier previous year	0	0	0
	C	Income of earlier previous years up to 15% accumulated or set apart	0	0	0
	D	Corpus	0	0	0
	E	Borrowed Fund	0	0	0
F	Any other (Please specify)	0	0	0	



Details of application resulting in payment or credit in excess of Rs 50 lakh during previous year to a single person out of 37									
S. No.	Name of person	PAN	Amount of application	Mode of Application		Total	TDS		Amount of TDS
				Electronic Modes	Other than Electronic modes		Whether any TDS has been deducted	Section under which TDS has been deducted	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No Records Available									
38.	<p>(i) Whether provisions of twenty second proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable? No</p> <p>(ii) If yes in (i) specify the reason why the provisions of twenty second proviso to Clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13 are applicable?</p> <p>(a) Provision of proviso to clause (15) of section 2 is applicable</p> <p>(b) Condition specified in clause (a) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated</p> <p>(c) condition specified in clause (b) of tenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 12A have been violated</p> <p>(d) condition specified in twentieth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-clause (ii) of clause (ba) of sub-section (1) of section 12A have been violated</p>								
39.	<p>(iii) If yes in (i), please provide computation of Income chargeable under twenty second proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (10) of section 13</p> <p>(a) Income for the previous year ₹</p> <p>(b) Total Expenditure incurred in India, for the objects of the auditee, ₹</p> <p>(c) Expenditure to be disallowed</p> <p>(i) Expenditure from the corpus standing to the credit of the trust or institution as on the end of the financial year immediately preceding the previous year relevant to the assessment year for which income is being computed ₹</p> <p>(ii) Expenditure from any loan or borrowing ₹</p> <p>(iii) Depreciation in respect of an asset, acquisition of which has been claimed as application of income, in the same or any other previous year; and ₹</p> <p>(iv) Expenditure in the form of contribution or donation to any person. ₹</p> <p>(v) Capital expenditure ₹</p>								



13(10) and 22nd proviso to section 10(23C)

Acknowledgement Number:888218380300925

	(f) Whether the auditee has not complied with the requirement of any other law, for the time being in force, and the order, direction or decree, by whatever name called, holding that such non-compliance has occurred, has either not been disputed or has attained finality.	No
44.	Whether there is any claim of depreciation or otherwise has been made in terms of Explanation 1 to Clause (23C) of section 10 or sub-section (6) of section 11 in respect of any asset, acquisition of which has been claimed as an application of income and the amount of such depreciation?	No
45.	In view of provisions of nineteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub-section (7) of section 11, please specify whether the trust or institution has claimed deduction under section 10 [other than clause (1), clause (23C) and clause (46) thereof] during the previous year and the amount of such claim?	No
46.	Whether the auditee has taken or accepted any loan or deposit or any specified sum, exceeding the limit specified in section 269SS during the previous year?	No
47.	Whether the auditee has received an amount exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?	No
48.	Whether the auditee has repaid any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?	No
49.	Whether the auditee is required to deduct or collect tax as per the provisions of Chapter XVII-B or Chapter XVII-BB?	Yes
(A)	Whether the auditee is liable to pay interest under section 201(1A) or section 206C(7) ?	No



Schedule Corpus : Details of Corpus

Type of Corpus Donation	(1) Opening Balance at the beginning of the previous year (Corpus not applied till the beginning of the previous year)	(2) Received/Treated as corpus during the previous year	(3) Applied during the previous year	(4) Amount invested or deposited back in to corpus (which was earlier claimed as application if such application fulfilled the conditions)	(5) Total amount invested or deposited back into corpus	(6) Financial year in which (4) was applied earlier	(7) Closing Balance [(1+2-5)-3]	(8) Invested in modes specified in section 11(5)	(9) Amount taxed in previous assessment year	(10) Invested in modes other than specified in section 11(5) as on last day of the previous year	If corpus donation is of type (i) then whether it fulfills the following conditions			(14) Invested or deposited in the forms and modes other than those specified under sub-section (5) of section 11.
											(11) Amount applied out of corpus for the purpose other than for which the voluntary contribution was made	(12) Contribution or donation to any person	(13) Maintained as not separately identifiable	
(i) Representing donations received for the renovation or repair of places notified under 80G(2)(b) on or after 01.04.2020														
(ii) Other than (i) above received on or after 01.04.21	11,84,55,00,000	0	0	2,32,45,00,000	2,32,45,00,000	2023-24	14,17,00,00,000	14,17,00,00,000	4,65,45,00,000	0				
(iii) Other than (i) and (ii) above														



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule FC: Details of Foreign Contribution

Nature of foreign contribution received during the previous year	Amount of foreign contribution received during the previous years (In Rs.)	Details of the total application from such contribution during the previous year (Amount in Rs.)
No Records Available		



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule LB: Details of Loan and Borrowing

(1) Opening Balance as on 1st April of the previous year	(2) Loan & Borrowings taken for applications towards objectives during the previous year	(3) Applied for the objects of the trust or institution during the previous year	(4) Amount of repayment of loan or borrowing during the previous year (which was earlier applied and not claimed as application if such application fulfilled the conditions as required)	(5) Financial year in which (4) was applied earlier	(6) Total repayment of loan or borrowing during the previous year	(7) Closing Balance as on 31st March (1+2-6=7)
			No Records Available			




Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule Int App: Details of income applied outside India										
S. No.	Name of the person to whom remittance is made	Taxpayer Identification Number if available	Amount of remittance out of India which is reported in Form No. 15CA	Amount of remittance outside India other than (4)	Charitable or religious purpose for which application is made	Country/Region of application	Whether applied for promoting international welfare in which India is interested and is and not to be included in total income of the auditee?	If approval for application outside India has been taken		
								Approval number	General/Speci al	Date of Approval
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
No Records Available										



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule D: Details of deemed application under Explanation 1 sub-section (1) of section 11 and deemed income under sub-section (1B) of section 11									
Year in which income is deemed to be applied (F.Y.)	Date of furnishing Form 9A	Amount deemed to be applied during the previous year referred to in column 1	Reason of deeming application	Out of the deemed application claimed earlier, amount required to be applied	Amount taxed in any earlier assessment year(s) out of the amount referred to in column (5)(Fill schedule DA)	Out of deemed application claimed, amount required during the financial year pertaining to current assessment year	Amount of deemed application claimed in earlier years, applied during the financial year relating to current AY	Amount which could not be applied and deemed to be income u/s 11(1B) during the previous year	Balance Amount of deemed application
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5)-(6)	(8)	(9) = (7)-(8)	(10) = (5)-(7)
No Records Available									



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule DA: Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (1B) of section 11


Year of accumulation(F.Y.)	Assessment year in which the amount referred to in column (6) of schedule DI was taxed				
	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
2024-25					
2023-24					
2022-23					
2021-22					
2020-21					
Total	0	0	0	0	0



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule AC: The details of accumulation

S. No.	Year of accumulation (Yr.)	Date of Furnishing Form 10	Amount accumulated in the year of accumulation	Purpose of accumulation	Amount applied for charitable or religious purposes up to the beginning of the previous year	Balance to be applied (3)-(5)	Amount taxed in any earlier assessment (ACA)	Balance available for application (6)-(7)	Amounts applied for charitable or religious purpose during the previous year out of previous year's accumulation	Amount applied for purposes other than the purpose for which such accumulation was made (if applicable)	Amount credited or paid to any trust or institution registered u/s 12AB or approved under sub-clauses (iv) or (v) or (vi) or (23C) of section 10 (if applicable)	Balance amount available for application (8) - (9) - (10) - (11)	Amount invested or deposited in the modes specified in section 11(5) out of 12	Amount invested or deposited in the modes other than specified in section 11(5) out of 12 (if applicable)	Amount which is not utilized during the period of accumulation (if applicable)	Amount deemed to be income within meaning of sub-section (3) of section 11 (if applicable) (10)+(11)-(14)-(15)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
No Records Available																
Total																



सत्यमेव जयते

कोष मूलो दण्डः



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule ACA: Details of accumulated income taxed in earlier assessment years as per sub-section (3) of section 11

Year of accumulation(F.Y.)	Assessment year in which this amount was taxed				
	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
2024-25					
2023-24					
2022-23					
2021-22					
2020-21					
Total	0	0	0	0	0



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule SP-a: Whether any part of income or property of the auditee is lent, or continues to be lent, to the specified person during the previous year?

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details		Details of Security			Details of Interest	
			Nature of Income or Property which is lent	Amount for which income or property is, or continues to be, lent to specified person for any period during the previous year	Nature of security	Value of security	Value of Adequate Security	Actual Rate of Interest that is charged	Adequate Rate of Interest
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
No Records Available									



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule SP-b: Details of land, building or other property of the auditee which is, or continues to be, made available during the previous year for use of the specified person, during the previous year:


S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details of asset		Duration for which asset is, or continues to be, made available for the use of specified person during the previous year.		Details of rent for the previous year		Details of other compensation for the previous year		
			Nature of asset	Address	From	To	Amount of rent	Adequate rent	Nature	Amount of compensation	Adequate compensation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
No Records Available											



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule SP-c: Details of salary, allowance or otherwise which is paid to the specified person out of the resources of the auditee for services rendered by him during the previous year


S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of Services rendered by specified person	Details of Payment for the previous year		Reasonable Amount for Services
				Nature of payment	Amount of payment	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No Records Available						



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule SP-d: Details of the services of the auditee are made available to the specified person during the previous year?									
S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Details of Services		Details of Remuneration for the previous year		Details of Compensation for the previous year		
			Nature of services made available	Value of services made available (In Rs)	Actual amount of remuneration for the service	Adequate Remuneration for the service	Nature of compensation for the service	Actual amount of compensation for the service	Adequate Compensation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

No Records Available




Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule SP- e 1 : Details of any share, security is purchased by or on behalf of the auditee from the specified person during the previous year?

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of property purchased	Details of Shares or Security			Details of Other Property being Movable				Total consideration paid for property during the previous year	Adequate Consideration	
				Name of the Company/ Concern of which the shares are purchased	Number of shares purchased during the previous year	Price of each share/security	Total consideration paid share or security	Adequate consideration for share or security	Nature of property	Number of property purchased			Price of property
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

No Records Available



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule SP- e 2 : Details in case of Other Property being Immovable:

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Type of asset	Address of Property	Area (in Sq ft)	Stamp Duty Value	Details of Consideration	
							Amount of consideration paid for asset	Adequate Consideration for asset
No Records Available								




Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule SP- f 1: Details of any share, security sold by or on behalf of the trust or institution to a specified person during the previous year?

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Nature of property sold	Details of Shares or Security			Details of Other Property being Movable									
				Name of the Company or Concern of which the shares are sold	Number of shares sold during the previous year	Price of each share or security	Total consideration share or security	Adequate consideration for share or security	Nature of movable property	Number of movable properties sold	Price of Movable property	Total consideration for property during the previous year	Adequate Consideration			


No Records Available



Acknowledgement Number:888218380300925


Schedule SP-f2 : Details in case of other property being immovable

S. No.	Name of specified person	PAN of specified person	Type of asset	Address of property	Area (in Sq ft)	Stamp Duty Value	Details of Consideration	
							Amount of consideration for asset	Adequate consideration for asset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
No Records Available								



Acknowledgement Number: 88216380300925

Schedule SP-g : Details of any income or property which is diverted during the previous year in favour of any specified person				
S. No.	Name of specified person in whose favor income or property diverted	PAN of specified person	Details of Income or property that is diverted	
			Nature of Income or property that is diverted	Value of income or property that is diverted (In Rs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
No Records Available				



Schedule h : Details of any funds that are, or continue to remain invested in any concern during the previous year in which the specified person has a substantial interest

S. No.	Nature of concern in which funds are continue to remain invested	Name of concern	Details of the Concern in which funds are, or continue to remain, invested				Details of substantial interest							
			Address of concern	Amount that is or continues to remain invested in concern during the year (In Rs.)	Duration of investment during the previous year		Nature of investment	Income from investment during the year	Name of specified person having substantial interest in concern	PAN of specified person	Nature of substantial interest	Nature of concern in which funds are continue to remain invested		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	From	To	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
No Records Available														



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule TDS disallowable : Details of amounts inadmissible amount disallowable under thirteenth proviso to clause (23C) of section 10 or sub section (1) of section 11 read with sub-clause (a) of clause (a) of section 40:

(a) Details of payment on which tax is not deducted

Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
No Records Available					

(b) Details of payment on which tax has been deducted but has not been paid on or before the due date specified in sub-section (1) of section 139

Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Name of Payee	PAN or Aadhar of payee, if available	Address of Payee	Amount of tax deducted	Amount out of (7) deposited, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
No Records Available							




सत्यमेव जयते
कोष मूलो दण्डः



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule 40A(3): Details of amount is disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C) or Explanation 3 sub-section(1) of section 11 read with sub-section (3) of section 40A


S. No.	Date of Payment	Amount of payment	Nature of payment	Details of Payee		Address
				Name	PAN or Aadhar of payee, if available	
No Records Available						



Acknowledgement Number: 886218380300925

Schedule 40A(3A): Details of Amount disallowable under thirteenth proviso to section 10(23C)/sub-section (1) of section 11 read with sub-section (3A) of section 40A

S. No.	Date of Payment	Amount	Nature	Details of Payee		
				Name	PAN or Aadhar of payee, if available	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
No Records Available						



Acknowledgement Number: 88218380300925

Schedule TDS/TCS

Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Section/ Nature of payment	Total amount of payment or receipt of the nature specified in column (3)	Total amount on which tax was required to be deducted or collected out of (4)	Total amount on which tax was deducted or collected at specified rate out of (5)	Amount of tax deducted or collected out of (6)	Total amount on which tax was deducted or collected at less than specified rate out of (7)	Amount of tax deducted or collected on (8)	Amount of tax deducted or collected but not deposited to the credit of the Central Government out of (6) and (8)
(1)	(2)&(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MUMN15285E	194C - Payments to contractors	24,000	24,000	24,000	240	0	0	0
MUMN15285E	194J - Fees for professional or technical services	90,72,261	90,72,261	90,72,261	9,07,226	0	0	0



कोष मूलो दण्डः



Acknowledgement Number: 88218380300925

Schedule Statement of TDS/TCS

Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Type of Form	Due date for furnishing	Date of furnishing, if furnished	Whether the statement of tax deducted or collected contains information about all transactions which are required to be reported
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
MUMN15285E	26Q	31-Oct-2024	08-Oct-2024	Yes
MUMN15285E	26Q	31-Jan-2025	27-Jan-2025	Yes
MUMN15285E	26Q	31-May-2025	05-May-2025	Yes



Acknowledgement Number: 88218380300925

Schedule Interest on TDS/TCS			
Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)	Amount of interest under section 201(1A) or 206C(7) is payable	Amount paid out of column (2)	Date of payment
(1)	(2)	(3)	(4)
No Records Available			



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule 269SS: Details of loan or deposit or any specified sum taken, exceeding the limit specified in section 269SS during the previous year

S. No.	Name of the lender or depositor	PAN or Aadhar the payee, if available	Address	Loan or Deposit or Any Specified Sum	Amount of loan or deposit taken or accepted	Whether the loan or deposit was squared up during the previous year?	Maximum amount outstanding in the account at any time during the previous year	By Cheque or Bank Draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other mode	Whether Account Payee if by Cheque or Bank Draft?
No Records Available									



Acknowledgement Number: 88218380300925

Schedule 269ST: Details of amount received exceeding the limit specified in section 269ST, from a person in a day; or in respect of a single transaction; or in respect of transactions relating to one event or occasion from a person during the previous year?

S. No.

Details of Payer and amount of payment

Name	PAN, if available	Address	Amount
No Records Available			



Acknowledgement Number: 888218380300925

Schedule 269T: Details of repayment of any amount being loan or deposit or any specified advance exceeding the limit specified in section 269T, during the previous year?

S. No.	Details of Payee		Details of Transaction				Maximum Amount outstanding	Whether Squared up?	Mode of Repayment	Whether Account Payee if by Cheque or Bank Draft?
	Name	Address	Loan or Deposit or Any Specified Advance	Amount	Please specify mode of receipt by Cheque or Bank Draft or use of electronic clearing system through a bank account or any other	Whether Account Payee, if by Cheque or Bank Draft?				
	No Records Available									



Acknowledgement Number:888218380300925

Schedule other law violation

S. No.	Name of law under which non-compliance has occurred	Nature of non-compliance	Date of order, direction or decree, holding that such non-compliance has occurred	Whether the order, direction or decree, has been disputed before any court or appellate forum	If yes, whether dispute has attained finality	Has the dispute been finalised in favour of the auditee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
No Records Available						

This form has been digitally signed by DHRUV SHAH having PAN BLZPS2544A from IP Address 103.180.178.227 on 30/09/2025 01:49:48 PM Dsc SI.No and issuer 143367466814185CN=SafeScript sub-CA for Class 3 Individual 2022,C=IN,O=Sify Technologies Limited,OU=Sub-CA



अनुलग्नक ए
एन ई आई ए ट्रस्ट
दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय का विवरण
मूल्यांकन वर्ष: 2025-26

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी संदर्भ.	राशि (रु. में)	राशि (रु. में)
घटाएं:	आय एवं व्यय खाते के अनुसार सकल आय कानून संबंधी शुल्कों के लिए प्रावधान का पहले आवेदन के रूप में दावा नहीं किया गया था एवं इसीलिए, प्रत्यावर्तन को आय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है			5,02,83,08,040 (2,08,46,743)
घटाएं:	प्रावधान के पूर्व आवेदन के रूप में कानून संबंधी शुल्क का दावा नहीं किया गया था एवं इसीलिए, प्रत्यावर्तन को इसके रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है			(90,49,14,093)
घटाएं:	आय के रूप में नहीं माने जाने वाले दावों के लिए प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया, क्योंकि प्रावधान के वर्ष में प्रावधान को आवेदन नहीं माना गया था।			(19,23,90,97,210)
जोड़ें:	वर्ष के लिए किए गए दावों हेतु प्रावधान			17,99,83,84,833
घटाएं:	ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए लागू की जाने वाली सकल आय ट्रस्ट के उद्देश्यों पर किया गया व्यय वर्ष के दौरान व्यय घटाएं: प्रीपेड व्ययों के आरंभिक एवं अंतिम शेष के मध्य का अंतर		7,34,63,527 (58,82,643)	2,86,18,34,827
घटाएं:	वि व 2024-25 के लिए अदत्त व्यय	2 एवं 2.1	6,75,80,884 (6,21,24,971)	
जोड़ें:	वि व 2023-24 के लिए अदत्त व्यय, वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	3	10,84,078	
जोड़ें:	आयकर भुगतान	6	65,39,991 62,73,57,703	
जोड़ें:	आय के अनुप्रयोग के रूप में मानी जाने वाली राशि वर्ष के दौरान आय का शुद्ध अनुप्रयोग आय का (अतिरिक्त) अनुप्रयोग (अर्थात् घाटा)	5	63,38,97,694 2,32,45,00,000	2,95,83,97,694 (9,65,62,867)
घटाएं:	धारा 11(I)(ए) के अंतर्गत 15% के आवेदन के रूप में अनुमति प्रदान की गई - अतिरिक्त आवेदन के कारण शून्य तक सीमित		42,92,75,224	-
	आय का (अतिरिक्त) अनुप्रयोग (अर्थात् घाटा) आगे नहीं बढ़ाया गया			(9,65,62,867)

टिप्पणियां :

- 1 आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 11 के प्रावधानों का अनुप्रयोग:
 - 1.1 करदाता को निपटान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
 - 1.2 ए ओ एवं करदाता के मध्य इस विषय पर मतभेद है कि क्या करदाता के उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) के लागू प्रावधानों के अनुसार अर्थ के भीतर धर्मार्थ उद्देश्य से उन्हें सौंपे गए हैं।
 - 1.3 ए ओ की राय में, करदाता के उद्देश्य धर्मार्थ उद्देश्य नहीं हैं, जैसा कि उक्त उप-धारा के प्रावधान लागू होते हैं, क्योंकि करदाता के उद्देश्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति की श्रेणी में आते हैं।
 - 1.4 तथापि, ए ओ द्वारा पिछले वर्षों के लिए करदाता की आय का आकलन करने में अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को लागू नहीं किया है।
 - 1.5 हालांकि, माननीय मुंबई आई टी ए टी द्वारा करदाता के स्वयं के मामले में निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2017-18 एवं 2019-20 के लिए अपने आदेश के जरिए से माना गया है कि करदाता के उद्देश्य अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत परिभाषित "धर्मार्थ उद्देश्य" हैं एवं अधिनियम की धारा 11 तथा 12 के अंतर्गत छूट की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 2018-19, 2022-23 एवं 2023-24 के लिए करदाता की कुल आय का आकलन करते समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रस्ट की दलीलों को भी स्वीकार किया गया है एवं अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई है, जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत पारित कर निर्धारण आदेशों से स्पष्ट है।
 - 1.6 लागू तथ्यों एवं माननीय मुंबई आई टी ए टी के उक्त निर्णयों एवं कर निर्धारण वर्ष 2018-19, 2022-23 तथा 2023-24 के लिए कर निर्धारण के आदेश (आदेशों) को ध्यान में रखते हुए, करदाता के अपने मामले पर विश्वास किया जा रहा है एवं संगति के नियम के सिद्धांत का सम्मानपूर्वक पालन किया जा रहा है, जो कानून में एक सटीक रूप से स्थापित प्रस्ताव है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि करदाता की वस्तुएं अधिनियम की धारा 2(15) के अंतर्गत परिभाषित धर्मार्थ उद्देश्य हैं एवं इसीलिए, अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों को संदर्भित वर्ष के लिए आय का आकलन करने में लागू किया जाना है।

2 वर्ष के अंत तक भुगतान नहीं किए गए व्यय, आय के आवेदन के रूप में दावा नहीं किए गए

विवरण	राशि (रु.)
योगदान एवं शुल्क का प्रावधान	5,68,36,012
वर्तमान वर्ष के लिए देय प्रशासनिक शुल्क	24,76,866
प्रशासनिक शुल्क पर जी एस टी घटक	14,32,127
विविध लेनदार	5,32,440
देय टी डी एस	8,47,526
कुल	6,21,24,971



3 दिनांक 31.03.2024 तक बकाया व्यय, वर्ष के दौरान भुगतान किया गया एवं इसीलिए, आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया
विवरण
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया निर्धारण वर्ष 2024-25 से संबंधित टी डी एस
विविध लेनदार
कुल

राशि (रु.)

7,00,678

3,83,400

10,84,078

4 सकल प्राप्ति पर धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत परिमाणीकरण का आधार:
निम्नलिखित न्यायिक घोषणाओं पर भरोसा किया जाता है:

(क) सी आई टी बनाम सामुदायिक संगठन कार्यक्रम [248 आई टी आर 1] (एस सी)

(ख) सी आई टी बनाम सामुदायिक संगठन कार्यक्रम [228 आई टी आर 620] (केरल उच्च न्यायालय) 25.10.1996

5 लागू किए गए कोष अनुदान का विवरण निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:

विवरण	राशि रु. में	राशि रु. में
ट्रस्ट फंड अथवा कॉर्पस:- प्रारंभिक जमा	47,41,00,00,000	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त जमा शेष		47,41,00,00,000
दिनांक 31.03.2025 तक बैंकों में सावधि जमा		14,17,00,00,000
दिनांक 1.04.2021 से प्राप्त कॉर्पस		16,50,00,00,000
जोड़ें: निर्धारण वर्ष 2024-25 में आयकर के लिए प्रस्तावित कोष की राशि को 11(5) मदों में निवेश नहीं किया जा रहा है		(2,33,00,00,000)
		4,65,45,00,000
निर्धारण वर्ष 2025-26 में 11(5) मोड में पुनः स्थापित/निवेशित कोष की राशि एवं इसलिए, आय के आवेदन के रूप में दावा किया गया		2,32,45,00,000

6 आयकर भुगतान

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए

आयकर भुगतान

5,52,57,49,901

दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए

आयकर भुगतान

4,89,83,92,198

आयकर भुगतान का अनुप्रयोग (अर्थात् वृद्धि)

62,73,57,703

7 आज की तारीख तक धारा 11(2) के अंतर्गत कोई शेष राशि संग्रह नहीं हुई है

एन ई आई ए ट्रस्ट के लिए

हस्ताक्षरित

(सुष्टिराज अम्बह)
अध्यक्ष ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(सुबीर कुमार दास)
प्रबंध ट्रस्टी

हस्ताक्षरित

(हर्ष बंगारी)
ट्रस्टी



ANNEXURE A
NEIA TRUST
STATEMENT OF TOTAL INCOME FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025
ASSESSMENT YEAR: 2025-26

Sr. No.	Particulars	Note ref.	Amount (in Rs.)	Amount (in Rs.)
	Gross Income as per Income & Expenditure Account			5,02,83,08,040
Less:	Provision for Legal Charges earlier not claimed as application and hence, reversal is not offered as income			(2,08,46,743)
Less:	Reversal of contribution to Public Trust Administration Fund not treated as income as the same was not considered application in the year of provision.			(90,49,14,093)
Less:	Reversal of provision for claims not treated as income, since provision was not considered application in the year of provision.			(19,23,90,97,210)
Add:	Provision for claims made for the year			17,99,83,84,833
	Gross Income to be applied for the objects of the Trust			2,86,18,34,827
Less:	Expenditure Incurred on the objects of the Trust			
	Incurred during the year		7,34,63,527	
	Less: Difference between opening and closing balance of prepaid expenses		(58,82,643)	
			6,75,80,884	
	Less: Unpaid expenses for FY 2024-25	2 and 2.1	(6,21,24,971)	
	Add: Unpaid expenses for FY 2023-24, paid during the year	3	10,84,078	
			65,39,991	
Add:	Income tax payments	6	62,73,57,703	
			63,38,97,694	
Add:	Amount to be treated as an application of income	5	2,32,45,00,000	
	Net application of income during the year			2,95,83,97,694
	(Excess) application of income (i.e. deficit)			(9,65,62,867)
	Less : Allowed as application u/s. 11(1)(a) of 15% - restricted to Nil since excess application		42,92,75,224	-
	(Excess) application of income (i.e. deficit) not carried forward			(9,65,62,867)

Notes:

- 1 **Application of provisions of Section 11 of the Income Tax Act, 1961 (the Act):**
 - 1.1 The assessee is settled by the Government of India.
 - 1.2 There is a difference of opinion by and between the AO and the assessee as to whether the objects of the assessee are charitable purposes within the meaning assigned to it in terms of the applicable provisions of Section 2(15) of the Act.
 - 1.3 In the opinion of the AO, the objects of the assessee are not charitable purposes as proviso to the said sub-section is applicable, since the objects of the assessee are falling in the category of advancement of any other object of general public utility.
 - 1.4 Hence, the AO has not applied the provisions of Section 11 of the Act in assessing the income of the assessee for earlier years.
 - 1.5 However, the Hon. Mumbai ITAT vide its Order(s) in the assessee's own case for AY 2010-11 to 2017-18 and 2019-20 has held that the objects of the assessee are "Charitable Purpose" as defined U/s.2(15) of the Act and has allowed exemption under Section 11 and 12 of the Act. Further, the AO in assessing the total income of the assessee for AY 2018-19, 2022-23 and 2023-24 has also accepted the contentions of the Trust and has allowed exemption u/s. 11 and 12 of the Act, as evident from the orders of assessment passed u/s. 143(3) of the Act.
 - 1.6 Keeping in view the facts applicable and the said decisions of the Hon. Mumbai ITAT and the order(s) of assessment for the assessment year(s) 2018-19, 2022-23 and 2023-24 in the assessee's own case being relied upon and respectfully following the principle of Rule of Consistency, a well settled proposition in law relied upon, it is submitted that objects of the assessee are charitable purpose as defined under Section 2(15) of the Act and hence, the provisions of section 11 of the Act have to be applied in assessing the income for the year under reference.

2 **Expenses unpaid as of the year-end, not claimed as application of income**

Particulars	Amount (Rs.)
Provision for Contribution and Fees	5,68,36,012
Admin. Charges Payable for current year	24,76,866
GST component on Admin charges	14,32,127
Sundry Creditors	5,32,440
TDS payable	8,47,526
Total	6,21,24,971



3 Expenses unpaid as of 31.03.2024, paid during the year and hence, claimed as an application of income

Particulars

TDS pertaining to AY 2024-25 paid during the year
Sundry Creditors
Total

Amount (Rs.)

7,00,678

3,83,400

10,84,078

4 **Basis of quantification u/s 11(1)(a) on Gross Receipts:**

Reliance is placed on following judicial pronouncements:

- (a) CIT v Programme for Community Organisation [248 ITR 1] (SC) 28.11.2000
(b) CIT v Programme for Community Organisation [228 ITR 620] (Kerala HC) 25.10.1996

5 **The details of corpus donation applied is determined as under:**

	Particulars		Amount in Rs	Amount in Rs
Add:	Trusts Funds or Corpus :-			
	Opening balance		47,41,00,00,000	
	Received during the year		-	47,41,00,00,000
	Closing balance			
	Fixed deposits with banks as on 31.03.2025			14,17,00,00,000
	Corpus received from 1.04.2021			16,50,00,00,000
				(2,33,00,00,000)
Less:	Amount of Corpus offered to income tax in AY 2024-25 being not invested in 11(5) modes			4,65,45,00,000
	Amount of Corpus re-instated / invested in 11(5) modes in AY 2025-26 and hence, claimed as an application of income			2,32,45,00,000
6	Income Tax Payments			
	For the year ended 31.03.2025			
	Income Tax Payments		5,52,57,49,901	
	For the year ended 31.03.2024			
	Income Tax Payments		4,89,83,92,198	
	Application of Income Tax Payments (i.e. increase)			62,73,57,703

7 There is no balance accumulation u/s. 11(2) as of date

S. Ambastha
22/09/25
(Sristiraj Ambastha)
Chairman Trustee

For NEIA TRUST

(Sibir Kumar Das)
Managing Trustee

(Harsha Bangari)
Trustee



सेवा में,
निदेशक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
आरटीआई बिल्डिंग, छठी मंजिल
एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट अस्पताल के पीछे
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई।

एनईआईए ट्रस्ट

31.03.2025 तक सावधि जमा का प्रमाण पत्र

हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने एनईआईए ट्रस्ट की सावधि जमा रसीद का भौतिक सत्यापन कर लिया है एवं पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2025 तक उसके पास 14,17,00,00,000 रुपये (मूलधन) की सावधि जमा राशि है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	बैंक एवं शाखा	सावधि जमा की तारीख	उपकरण सं	ब्याज दर	सावधि जमा राशि
1	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	28-03-2025	022123030009228	7.60	2,50,00,00,000
2	एच डी एफ सी बैंक लि	28-03-2025	50301135082910	7.60	1,15,00,00,000
3	फेडरल बैंक	28-03-2025	15050300642384	7.40	50,00,00,000
4	फेडरल बैंक	28-03-2025	15050300642376	7.40	50,00,00,000
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	28-03-2025	60530105672	7.75	2,35,00,00,000
6	आई डी एफ सी फ्रस्ट बैंक	28-03-2025	10223345541	7.91	1,00,00,00,000
7	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	28-03-2025	022123230003040	7.60	50,00,00,000
8	भारतीय स्टेट बैंक	29-03-2025	43955017099	7.40	1,60,00,00,000
9	भारतीय स्टेट बैंक	29-03-2025	43955017293	7.15	50,00,00,000
10	भारतीय स्टेट बैंक	29-03-2025	43955017599	7.15	50,00,00,000
11	बैंक ऑफ इंडिया	29-03-2025	001041110005343	6.75	40,00,00,000
12	बैंक ऑफ इंडिया	29-03-2025	001056110010439	7.25	1,33,50,00,000
13	यूको बैंक	29-03-2025	00030310265499	7.25	1,33,50,00,000
					14,17,00,00,000

यूडीआईएन : 25223609BMIBXM5224

कृते बंसीलाल शाह एंड कं

सनदी लेखाकर

फर्म पंजीकरण सं .: 000384डबल्यू

हस्ताक्षरित

सी ए ध्रुव शाह

भागीदार

सदस्यता सं .: - 223609

दिनांक : 22 /09/2025

स्थान : मुंबई



Bansilal Shah & Co.

CHARTERED ACCOUNTANTS

Ref. No. _____

Date _____

To,

The Director
Comptroller & Auditor General of India
RTI Building, 6th Floor
Behind Asian Heart Institute Hospital
BKC Bandra (East), Mumbai.

NEIA Trust

Certificate of Fixed Deposit as on 31.03.2025

We hereby certify that we have physically verified the Fixed deposit receipt of NEIA Trust and confirm that it holds Fixed Deposit amounting to Rs 14,17,00,00,000 (principal) as on 31st March 2025. Details of which are as under:

Sr. No.	Bank and Branch	Date of FD Placement	Instrument No.	Interest rate	FD Amount
1	Union Bank of India	28-03-2025	022123030009228	7.60	2,50,00,00,000
2	HDFC Bank Ltd.	28-03-2025	50301135082910	7.60	1,15,00,00,000
3	Federal Bank	28-03-2025	15050300642384	7.40	50,00,00,000
4	Federal Bank	28-03-2025	15050300642376	7.40	50,00,00,000
5	Bank of Maharashtra	28-03-2025	60530105672	7.75	2,35,00,00,000
6	IDFC First Bank	28-03-2025	10223345541	7.91	1,00,00,00,000
7	Union Bank of India	28-03-2025	022123230003040	7.60	50,00,00,000
8	State Bank of India	29-03-2025	43955017099	7.40	1,60,00,00,000
9	State Bank of India	29-03-2025	43955017293	7.15	50,00,00,000
10	State Bank of India	29-03-2025	43955017599	7.15	50,00,00,000
11	Bank of India	29-03-2025	001041110005343	6.75	40,00,00,000
12	Bank of India	29-03-2025	001056110010439	7.25	1,33,50,00,000
13	UCO Bank	29-03-2025	00030310265499	7.25	1,33,50,00,000
					14,17,00,00,000



UDIN: 25223609BMIBXM5224

FOR BANSILAL SHAH & CO.

Chartered Accountants

Firm Regn. No. 000384W

Date: 22/09/2025

Place: Mumbai



CA Dhruv Shah
Partner

Membership No.: - 223609



राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के संबंध में समीक्षा नोट

1. पृष्ठभूमि:

- 1.1. मध्यम और दीर्घावधिक निर्यात अथवा परियोजना निर्यात किसी देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के परियोजना निर्यात ज्ञापन (पी ई एम) के अनुसार, आस्थगित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात और विदेशों में टर्नकी परियोजनाओं तथा सिविल निर्माण अनुबंधों के निष्पादन को समग्र रूप से "परियोजना निर्यात" कहा जाता है। सामान्यतया परियोजना निर्यात अनुबंध उच्च मूल्य के होते हैं तथा निर्यातकों को अनुबंध प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी ऋण शर्तों की प्रस्तावों आवश्यकता होती है।
- 1.2. ईसीजीसी, भारत से किए जाने वाले निर्यात संवर्धन के अपने मिशन से भारत में निर्यातकों को एवं निर्यातकों को निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जोखिम रक्षा प्रदान करता है। अल्पावधि (एस टी) निर्यात एवं मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) परियोजना निर्यात दोनों के अधीन ऋण जोखिमों पर रक्षा प्रदान करने के लिए कई प्रकार के ऋण बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं।
- 1.3. अस्सी एवं नब्बे के पिछले दशकों में, इराक का ईरान के साथ युद्ध था एवं तत्पश्चात खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीका द्वारा इराक पर हमला किया गया; जोखिमों के चलते इराक में चल रही परियोजनाएं अवरुद्ध हो गयीं। इराक़ी अर्थव्यवस्था के खराब स्थिति के कारण इराक को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय कंपनियों द्वारा इराक में ली गयी परियोजनाओं पर भुगतान प्राप्त नहीं हुए। निर्यातकों को भारी हानि उठानी पड़ी एवं जिन्होंने ईसीजीसी से बीमा रक्षा प्राप्त की थी उन्हें लगभग रु 800 करोड़ की हानि की क्षतिपूर्ति की गयी।
- 1.4. इराक संकट का सामना करने के उपरांत ईसीजीसी को यह बोध हुआ की यदि भविष्य में इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई तो कंपनी का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। अतः भारत से मध्यम व दीर्घावधिक निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत से किए जाने वाले बड़े मूल्य के परियोजना निर्यातों के लिए भारत सरकार का आवश्यक समर्थन आवश्यक है।
- 1.5. इस उद्देश्य के साथ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए), भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में मध्यम एवं दीर्घावधिक निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सार्वजनिक ट्रस्ट का निर्माण किया गया जिसे " एन ई आई ए ट्रस्ट " के नाम से जाना जाता है। एन ई आई ए ट्रस्ट का उद्देश्य राष्ट्र हित के उद्देश्य वाली बड़े मूल्य वाली परियोजनाओं एवं निर्यातों, जिन पर ईसीजीसी अपनी क्षमता प्रतिबंधों अथवा उन शर्तों पर जो निर्यातों की प्रतिस्पर्धता को प्रभावित



न कर पाएँ पर रक्षा प्रदान करने में असमर्थ हो पर ऋण जोखिमों पर रक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है।

- 1.6. प्रथम दृष्टया केवल मध्यम व दीर्घावधिक निर्यात परियोजनाएं एवं वे परियोजनाएं जिन पर पुनर्बीमा रक्षा उपलब्ध न हो, पर ही एन ई आई ए ट्रस्ट से समर्थन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उन देशों को किए जाने वाले निर्यातों पर रक्षा प्रदान की जाएगी जिन पर सामान्य तौर पर पूर्णतया वाणिज्यिक दृष्टि से रक्षा प्रदान करना संभव न हो अथवा जो देश जोखिम सीमाओं के परे हो, जिन पर कंपनी द्वारा निर्धारित ऋण शर्तों / अवधि पर रक्षा संभव न हो, जो वर्तमान में आर्थिक / राजनीतिक संकट से जूझ रहे हों, परंतु जहां सरकार की दीर्घावधिक रणनीति के अधीन भारत की उपस्थिति अपेक्षित हो।
- 1.7. भारत सरकार ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति अर्थात् निर्देश समिति (सी ओ डी) का गठन किया है, जिसका उद्देश्य एनईआईए योजना का उचित एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना, इसके संचालन की निगरानी करना तथा इस योजना के अंतर्गत लाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं आवश्यक अनुमोदन प्रदान करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, समिति की संरचना में आवश्यकतानुसार उपयुक्त परिवर्तन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

सी ओ डी में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- i) वाणिज्य सचिव, अध्यक्ष
- ii) सचिव, आर्थिक मामले, सदस्य
- iii) सचिव, विदेश मंत्रालय, सदस्य
- iv) अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग, सदस्य
- v) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी, सदस्य
- vi) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, एक्विम बैंक, सदस्य
- vii) अपर सचिव/संयुक्त सचिव, ईएंडएमडीए प्रभाग, वाणिज्य विभाग, सदस्य-सचिव

1.8 प्रबंधन एजेंसी के रूप में ईसीजीसी सी ओ डी के विचारार्थ रक्षा (खरीदार ऋण- एन ई आई ए रक्षा एवं ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षा) के लिए प्रस्तावों से संबन्धित सभी गतिविधियाँ पूर्ण करता है। सी ओ डी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, रक्षा जारी करने एवं निगरानी करने के साथ ही रक्षा के प्रशासन संबंधी कार्य, रक्षित परियोजनाओं की आवधिक रिपोर्ट, दावा प्रबंधन एवं वसूली इत्यादि का प्रबंधन किया जाता है। ईसीजीसी ट्रस्ट के निवेशों का भी प्रबंधन करता है।



- 1.9 ट्रस्ट के लेखे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) द्वारा नामित लेखा परीक्षकों के द्वारा किए जाने वाले वार्षिक वैधानिक लेखापरीक्षा एवं इसके साथ ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी) द्वारा किए जाने वाले अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं ।
- 1.10 ट्रस्ट की स्थापना 66 करोड़ रुपये के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। जब ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, तो एक निश्चित अवधि के पश्चात इसके 2,000 करोड़ रुपये का कोष होने की उम्मीद थी। प्रारंभ में, अधिकतम जोखिम की सीमा किसी भी समय कॉर्पस के पास उपलब्ध कोष के 10 गुना तक रखी गई थी। हालांकि, निर्यातकों की मांग में वृद्धि के कारण, 10.09.2014 को भारत सरकार की आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सी सी ई ए), ने अपनी बैठक में, एनईआईए ट्रस्ट के लिए कॉर्पस/अनुदान सहायता प्रतिबद्धता को ₹2000 करोड़ से बढ़ाकर ₹4000 करोड़ कर दिया एवं जोखिम हामीदारी क्षमता (अनुमति प्राप्त अधिकतम देयता) को वास्तविक कोष के 10 गुना से बढ़ाकर 20 गुना कर दिया। सीसीईए ने 29.09.2021 को हुई अपनी बैठक में, एनईआईए योजना में 1,650 करोड़ रुपये के अतिरिक्त राशि को उपलब्ध कराने को मंजूरी दी गयी एन ई आई ए के लिए प्राधिकृत राशि की प्रतिबद्धता को बढ़ाकर 4,741 करोड़ रुपये कर दिया गया । तदानुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा 744 करोड़ रु एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 906 करोड़ रु की पूंजी प्रदान की गई जिससे ट्रस्ट की पूंजी बढ़कर वर्तमान में 4741 करोड़ रु हुई।
- 1.11 दिनांक 31 मार्च, 2025 तक भारत सरकार से प्राप्त अंशदान ₹ 4,741 करोड़ था। हालाँकि, दिनांक 31 मार्च, 2025 तक आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी), व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) तथा संभावित दावों के लिए प्रावधान/रिपोर्ट की गई चूक एवं न्यायालय अपील कार्यवाही के अधीन आयकर मांग के लिए लेखांकन के उपरांत जारी/स्वीकृत रक्षा की अधिकतम देयता पर रक्षा हेतु कोई राशि उपलब्ध नहीं है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल धनराशि ₹ 1419.69 करोड़ थी। इसके अलावा, आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी), व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) और संभावित दावों के लिए प्रावधान/रिपोर्ट की गई चूकों तथा न्यायालय अपील कार्यवाही के अंतर्गत आयकर मांग के लिए लेखांकन के उपरांत, लंबित दावों, कर संबंधी प्रावधानों आदि के कारण ट्रस्ट की बकाया देनदारियों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की राशि उपलब्ध नहीं है।
- 1.12 दिनांक 19.03.2025 को सम्पन्न सी सी ए ए की में एनईआईए ट्रस्ट में ₹2,687.30 करोड़ की राशि का योगदान करने तथा उसकी प्राधिकृत निधि को बढ़ाकर ₹7,428.30 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी । भारत सरकार द्वारा दिनांक 23 जून, 2025 को, स्वीकृत ₹2,687.30 करोड़ की अतिरिक्त निधि में से, ₹500 करोड़ की राशि जारी कर दी गयी।



1.13 एनईआईए ट्रस्ट मध्यम एवं दीर्घावधि/परियोजना निर्यात के लिए ईसीजीसी द्वारा जारी रक्षाओं को (आंशिक/पूर्ण) समर्थन देकर मध्यम एवं दीर्घावधि/परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है तथा भारत से परियोजना निर्यात से जुड़े खरीदार ऋण (बी सी-एन ई आई ए) के लिए एक्ज़िम बैंक को रक्षा प्रदान करता है। कुल जोखिम बीमांकन क्षमता/अधिकतम देयता (हेडरूम) से 75% एन ई आई ए (बी सी-एन ई आई ए) की खरीदार ऋण योजना के लिए आरक्षित है तथा शेष 25% मध्यम तथा दीर्घावधिक निर्यात के लिए ईसीजीसी की योजनाओं के समर्थन हेतु निर्धारित है। तथापि, वर्तमान में सीओडी के निर्देशों के अनुसार हेडरूम की अनुपलब्धता के कारण बीसी-एनईआईए योजना के अंतर्गत नए कवर जारी नहीं किए जा रहे हैं।

2.एनईआईए निष्पादन सारांश

2.1 प्रारम्भिक दिनों में, ट्रस्ट द्वारा, ईसीजीसी को, जोखिम की हामीदारी को साझा करने की आपसी सहमति के साथ, अधिक मूल्य वाले मध्यम व दीर्घावधिक निर्यात/परियोजना निर्यात अनुबंधों अथवा उच्च जोखिम वाले देशों, जो ईसीजीसी की बीमांकन क्षमता से परे थे, के लिए क्षतिपूर्ति/गारंटी प्रदान करते हुए परियोजना निर्यात का संवर्धन किया गया।

2.2 वर्ष 2011 में, परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के अभियान के हिस्से के रूप में, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा भारतीय एक्ज़िम बैंक (बीसी- एनईआईए रक्षा) द्वारा विस्तारित क्रेता ऋण के लिए रक्षा जारी की गयी। क्रेता ऋण एक विशिष्ट वित्तपोषण तंत्र है जो क्रेता, जो भारतीय परियोजना निर्यातक (आईपीई) द्वारा पूर्ण की जाने वाली भारत की विशिष्ट परियोजना से जुड़े हैं, उन्हें ऋण (खरीदार को दिया जाने वाला ऋण) उपलब्ध करवाता है। यह सुविधा उन विकासशील देशों के पारंपरिक एवं नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है, जिन्हें मध्यम या दीर्घावधिक आधार पर आस्थगित ऋण की आवश्यकता होती है। अपनी स्थापना के बाद से, बीसी-एनईआईए रक्षा ने भारत से परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। योजना के अंतर्गत समाहित जोखिम पूर्ण रूप से राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) ट्रस्ट की लेखों में शामिल किया जाता है।

2.3 कुल मिलाकर, 14 देशों अर्थात् श्रीलंका, जाम्बिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, तंजानिया, ईरान, सेनेगल, मालदीव, कोट डी आइवोर, घाना, कैमरून, सूरीनाम, मॉरिटानिया और युगांडा में भारत एक्ज़िम बैंक को ₹ 25, 097 करोड़ की कुल अधिकतम देयता वाली समान संख्या में परियोजनाओं के लिए क्रेता ऋण योजना के तहत 28 रक्षा जारी किए गए हैं। इन 28 रक्षाओं में से, ₹15,525 करोड़ की कुल अधिकतम देयता वाली 16 रक्षाओं को बंद कर दिया गया। इनमें, ईरान (1), घाना (2), श्रीलंका (4), सूरीनाम (2), जाम्बिया (1), जिम्बाब्वे (2) के रक्षा शामिल हैं, जो इन परियोजनाओं के अधीन ₹8557.09 करोड़ के



दावे-भुगतान विवादों के कारण बंद कर दिए गए। इसके अलावा, जाम्बिया, तंजानिया एवं सेनेगल पर एक रक्षा प्रत्येक पर सफल पुनर्भुगतान के कारण बंद कर दिये गए। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक 7 निर्यातक-लाभार्थियों द्वारा 7 देशों में निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए ₹ 9,572 करोड़ की कुल अधिकतम देयता के साथ 15 खरीदार ऋण व्यवस्था रक्षा लागू रहे। बीसी-एनईआईए के अधीन प्रदत्त रक्षों में निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग वस्तुओं की आपूर्ति, जल उपचार संयंत्र, बिजली ट्रांसमिशन एवं वितरण आदि क्षेत्र प्रमुख हैं।

2.4 दिनांक 19.03.2024 को आयोजित सी ओ डी की 60वीं बैठक में उनके द्वारा निर्देश जारी किए गए कि अतिरिक्त राशि की अनुपलब्धता को देखते हुए तथा व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) की सिफारिश के अनुसार, बीसी-एन ई आई ए के अधीन कोई अन्य प्रकार की रक्षा जारी नहीं की जाएगी।

2.5 दिनांक 31.03.2025 तक, ट्रस्ट द्वारा घाना, ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे में अपनी 12 खरीदार ऋण सुविधाओं के लिए भारतीय एक्ज़िम बैंक को कुल ₹ 6,829.67 करोड़ के दावों की अदायगी की गयी। दिनांक 31.03.2025 तक, एक्ज़िम बैंक द्वारा ईरान, श्रीलंका, सूरीनाम, जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे में खरीदार ऋण सुविधाओं के अधीन प्रदत्त दावों के अधीन कुल ₹ 293 करोड़ की कुल वसूली साझा की गयी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, दिनांक 18.03.2025 को आयोजित सी ओ डी की 61वीं बैठक में जाम्बिया में परियोजना के लिए जारी बी सी-एन ई आई ए रक्षा के अधीन दिनांक 31.03.2025 तक स्वीकृत हानि के ₹ 130.32 करोड़ (लगभग) के दावे को अनुमोदित किया गया।


2.6 अपनी मध्यम व दीर्घावधि जोखिम साझाकरण योजना के , एन ई आई ए ट्रस्ट पिछले कुछ वर्षों में ईसीजीसी को 331 बीमा के लिए सहायता प्रदान की है, जिनकी अधिकतम देयता ₹19,591 करोड़ है, जो कंपनी द्वारा ₹43,571 करोड़ मूल्य की 213 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, एनईआईए ट्रस्ट द्वारा ईसीजीसी को दी जाने वाली सहायता कंपनी द्वारा अंडरराइट किए गए जोखिम के 50% से 100% तक होती है। सीओडी द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, ईसीजीसी द्वारा ट्रस्ट को अपेक्षित गारंटी शुल्क के भुगतान के माध्यम से जोखिम को ट्रस्ट के साथ साझा किया जाता है। 31.03.2025 तक, एमएलटी जोखिम साझाकरण योजना के अंतर्गत 37 परियोजनाओं के लिए 45 कवर ₹2,332 करोड़ की अधिकतम देयता के साथ लागू थे। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीओडी ने 18.03.2025 को आयोजित अपनी 61वीं बैठक में, एनईआईए ट्रस्ट के साथ जोखिम-साझाकरण व्यवस्था के तहत जारी अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए ईसीजीसी द्वारा निपटाए गए दावों के लिए एनईआईए ट्रस्ट से 72.42 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति को मंजूरी दी।



2.7 लागू रक्षा के अंतर्गत कुल जोखिम

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रस्ट द्वारा रक्षा किए गए ऋण में पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की इसी अवधि की तुलना में 24% (लगभग) की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। ऋण में यह कमी मुख्य रूप से दावों के निपटान के कारण अथवा ऋण की समाप्ति पर रक्षा के समाप्त होने के कारण हुई है।

एनईआईए के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का जोखिम रुपए करोड़ में



3. दिनांक 31.03.2025 तक एनईआईए के अंतर्गत रक्षा का सारांश

क्र. सं.	विवरण	बीसी-एनईआईए	ईसीजीसी-एमएलटी जोखिम साझाकरण योजना	
			पॉलिसी	ईसीआईबी
दिनांक 31.03.2025 तक जारी रक्षा				
1	रक्षा की गई परियोजनाओं की संख्या (परियोजना मूल्य सहित)	28 (₹18,006 करोड़)	179 (₹34,221 करोड़)	34 (₹ 9,350 करोड़)
2	जारी रक्षा की संख्या (रक्षा मूल्य सहित)	28 (₹16,661 करोड़)	209 (₹22,644 करोड़)	122 (₹2,834 करोड़)
3	जारी रक्षा के अंतर्गत अधिकतम देयता	₹ 25,097 करोड़	₹17,475 करोड़	₹2,116 करोड़
4	बंद हो चुकी परियोजनाएं (परियोजना मूल्य सहित)	16 (₹11,438 करोड़)	147 (₹ 26,133 करोड़)	29 (₹ 8,179 करोड़)
5	बंद हो चुकी रक्षाएँ	16	175	111



क्र. सं.	विवरण	बीसी-एनईआईए	ईसीजीसी-एमएलटी जोखिम साझाकरण योजना	
			पॉलिसी	ईसीआईबी
	(रक्षा मूल्य सहित)	(₹10,280 करोड़)	(₹ 19,782 करोड़)	(₹ 2,221 करोड़)
6	वर्तमान में प्रभावशील परियोजनाएं (परियोजना मूल्य सहित)	12 (₹ 6,568 करोड़)	32 (₹ 8,088 करोड़)	5 (₹ 1,171 करोड़)
7	वर्तमान में प्रभावशील रक्षाएँ (रक्षा मूल्य सहित)	12 (₹6,381 करोड़)	34 (₹ 2,862 करोड़)	11 (₹ 613 करोड़)
8	31.03.2025 तक अधिकतम देयता	₹ 9,572 करोड़	₹ 2,090 करोड़	₹ 242 करोड़
9	रक्षित देशों की संख्या*	58		
10	रक्षित निर्यातकों की संख्या*	81		

*देश और निर्यातक को जारी किए गए रक्षा (पॉलिसी/ईसीआईबी/खरीदार ऋण बीमा) की संख्या से निष्पक्ष, उन्हें केवल एक बार गणना किया जाता है।

4. मार्च, 2025 तक ट्रस्ट की वित्तीय स्थिति और क्षमता उपयोग

- 4.1 दिनांक 31 मार्च, 2025 तक भारत सरकार से प्राप्त अंशदान ₹4,741 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ₹4,738.65 करोड़ की आय (ब्याज, गारंटी शुल्क, वसूली, कर वापसी आदि) और ₹8,059.96 करोड़ के व्यय (प्रशासनिक व्यय, दावा भुगतान, आयकर आदि) को शामिल करने के बाद कुल उपलब्ध कोष ₹1,419.69 करोड़ था।
- 4.2 ट्रस्ट द्वारा हामीदारी किए जाने योग्य कुल जोखिम उपलब्ध कोष का 20 गुना अथवा ₹ 80,000 करोड़, जो भी कम हो, है।
- 4.3 दिनांक 31 मार्च 2025 तक, एनईआईए ट्रस्ट के पास ₹ 11,904 करोड़ का उपयोग किया गया हेडरूम है, जिसका अर्थ है कि जारी/स्वीकृत रक्षा की अधिकतम देयता कॉर्पस द्वारा समर्थित नहीं है और नए रक्षा अनुरोधों की हामीदारी की कोई स्थिति उपलब्ध नहीं है।
- 4.4 स्थापना से दिनांक 31.03.2025 तक ट्रस्ट की आय एवं व्यय से संबंधित विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

आय	राशि करोड़ में	व्यय	राशि करोड़ में
1. सरकार से अनुदान सहायता	₹ 4,741.00	1. आयकर	₹ 1,109.78
2. गारंटी शुल्क अर्जित		2. दावा	₹ 6,908.33
3. कर वापसी	₹ 834.13	3. प्रशासनिक व्यय	₹ 41.85
	₹ 947.91		



आय	राशि करोड़ में	व्यय	राशि करोड़ में
4. एफडीआर पर अर्जित ब्याज	₹2,644.14		
5. दावों की वसूली (प्रोत्साहन पैकेज और खरीदार ऋण)	₹ 312.47		
कुल	₹ 9,479.65		₹ 8,059.96

4.5 ट्रस्ट के फंड का निवेश सीओडी द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। फंड के निवेश पर निर्णय ईसीजीसी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों से बनी निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, ट्रस्ट के कोष को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया जाता है।

5 वित्त वर्ष 2024-25 की मुख्य विशेषताएं

5.1 वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ट्रस्ट के लिए दर्ज की गई कुल आय ₹ 502.83 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष ₹ 3,794.06 करोड़) थी, जिसमें ₹ 126.36 करोड़ की ब्याज आय (पिछले वित्त वर्ष ₹ 203.23 करोड़), ₹ 27.68 करोड़ की गारंटी शुल्क आय (पिछले वित्त वर्ष ₹ 117.08 करोड़), ₹ 131.15 करोड़ की दावा वसूली (पिछले वित्त वर्ष ₹ 106.31 करोड़), और पिछले वर्ष के दावा प्रावधान का प्रत्यावर्तन, सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान का प्रत्यावर्तन और ईसीजीसी को देय ₹ 217.64 करोड़ के कानून संबंधी शुल्क का प्रत्यावर्तन शामिल है।

5.2 वर्ष के लिए कुल व्यय ₹ 7.35 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष ₹ 3,803.39 करोड़) था, जिसमें ईसीजीसी को ₹ 1.53 करोड़ के प्रशासनिक प्रभार, सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान के लिए ₹ 5.68 करोड़ का प्रावधान, परामर्श कानूनी व्यय और ₹ 0.14 करोड़ के अन्य प्रभार शामिल हैं।

5.3 ₹495.48 करोड़ का अधिशेष था (पिछले वित्तीय वर्ष में ₹9.32 करोड़ का घाटा)। दिनांक 31.03.2025 तक ट्रस्ट के पास उपलब्ध कुल धनराशि 1,419.70 करोड़ थी।



दिनांक 31.03.2025 तक तुलन पत्र			
		((रु करोड़ में))	
देयता		आस्ति	
भारत सरकार से प्राप्त कोष	4,741.00	भुगतान किया गया आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस और मांग पर भुगतान किया गया कर)	552.57
सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान का प्रावधान	80.70	प्रीपेड व्यय	7.09
दावों के लिए प्रावधान	1,799.84	बकाया आय	0.95
अग्रिम रूप से प्राप्त गारंटी शुल्क	142.36	नकदी और बैंक शेष (बैंकों में एफडी सहित)	1,419.70
विविध क्रेडिट शेष	1.00		
आय और व्यय खाते का शेष (पिछला तुलन पत्र के अनुसार)	(5,280.07)		
सीवाई के आय और व्यय खाते के अनुसार अधिशेष (घाटा)	495.48		
कुल	1,980.31		1,980.31

आय एवं व्यय			
		((रु करोड़ में))	
व्यय		आय	
परामर्श शुल्क और विविध व्यय	0.12	निवेश पर ब्याज आय और कर वापसी	126.36
प्रशासनिक प्रभार	1.53	गारंटी शुल्क	27.68
सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान	5.68	दावा वसूली	131.15
लेखापरीक्षा शुल्क	0.02	ईसीजीसी को देय कानूनी शुल्कों का प्रत्यावर्तन	3.08
अधिशेष	495.48	सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान को वापस लेना	90.49
		सार्वजनिक ट्रस्ट प्रशासन निधि में योगदान को वापस लेना	124.07
कुल	502.83		502.83



5.4 दिनांक 31.03.2025 तक, ट्रस्ट ने विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹1,417.00 करोड़ का निवेश किया था। अन्य परिसंपत्तियों में ₹0.95 करोड़ का उपार्जित ब्याज, ₹2.70 करोड़ का बैंक शेष, ₹7.09 करोड़ के पूर्व-भुगतान किए गए प्रशासनिक व्यय और अब तक चुकाए गए ₹552.57 करोड़ के आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस और माँग पर चुकाए गए कर सहित) शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹99.52 करोड़ का अग्रिम कर का भुगतान किया गया। दिनांक 31.03.2025 तक ट्रस्ट की कुल परिसंपत्तियाँ ₹1,980.30 करोड़ थीं।



A Review Note on the National Export Insurance Account (NEIA)

1. Background:

- 1.1.** Medium and Long-Term Exports or Project Exports play a pivotal role in a country's economic growth. As per the Project Exports Memorandum (PEM) of Reserve Bank of India (RBI), export of engineering goods on deferred payment terms and execution of turnkey projects and civil construction contracts abroad are collectively referred to as "Project Exports". Project export contracts are generally of high value and exporters are required to offer competitive credit terms to win the contracts.
- 1.2.** ECGC, with a mission to promote exports from India, provides credit risk protection to exporters in India and also to commercial banks that extend both fund based and non-fund-based facilities to exporters. A range of credit insurance products are available to cover credit risks, both under Short Term (ST) exports and Medium and Long-Term (MLT) project exports.
- 1.3.** In the eighties and nineties of the last century, as Iraq was engaged in a war with Iran, followed by USA attack on Iraq during the Gulf War, the political risks heightened bringing all the on-going projects in Iraq to a standstill. With the Iraqi economy collapsing, Iraq faced tremendous financial crisis that resulted in non-payment for the projects undertaken by Indian companies in Iraq. The exporters suffered huge losses and those who had obtained insurance covers from ECGC were compensated for the losses to the tune of ₹800 crore.
- 1.4.** ECGC braved the Iraq crisis but realised that if a similar situation arose in future, it would threaten the existence of the Company. Hence, in order to promote Medium and Long-Term exports from India, it was imperative for the government to provide the necessary support to underwrite large value project exports from India.
- 1.5.** With this objective, the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), Government of India (GOI), in 2006, created a public trust called "The National Export Insurance Account (NEIA) Trust" to facilitate Medium and Long-Term exports. The NEIA Trust aims to ensure the availability of credit risk cover for



projects and other high-value exports, which are desirable from the point of view of national interest, but which ECGC is unable to underwrite due to capacity constraints or at terms which will not affect the competitiveness of the exports. ECGC administers the NEIA Trust.

- 1.6. Prima facie, only those medium and long-term export projects which are viable and for which reinsurance is not available are considered for seeking support from the NEIA Trust. Additionally, exports to countries which are not likely to be covered on purely commercial considerations or are beyond country exposure limits, acceptable credit terms/period prescribed by the Company or countries currently facing economic/political difficulties, but where Indian presence is required to be maintained as a part of the long-term strategy of the Government are also considered for underwriting the risk with the support of the NEIA Trust.
- 1.7. The Government of India has set up a High-Powered Committee viz. the Committee of Directions (COD) under the Ministry of Commerce & Industry to ensure proper and effective utilisation of NEIA scheme, monitoring of its operations and to provide guidance, supervision, and necessary approvals for the projects to be brought under the scheme. The Ministry of Commerce & Industry is the competent authority to make suitable changes in the composition of the Committee as and when considered necessary.

The COD comprises of the following:

- i) Commerce Secretary, Chairman
- ii) Secretary, Economic Affairs, Member
- iii) Secretary, Ministry of External Affairs, Member
- iv) Additional Secretary and Financial Adviser, Department of Commerce, Member
- v) Chairman & Managing Director, ECGC, Member
- vi) Chairman and Managing Director/ Managing Director, EXIM Bank, Member
- vii) Additional Secretary/ Joint Secretary, E&MDA Division, Dept. of Commerce, Member- Secretary



- 1.8. ECGC, as the managing agency, undertakes all activities relating to the proposals for the covers (BC-NEIA covers issued to India Exim Bank and MLT insurance covers issued by ECGC) for the consideration of the COD. After obtaining the COD's approval, ECGC manages the administration of covers including issue of covers as well as monitoring, periodical reporting of the projects under cover, claim management and recovery etc. ECGC also manages the investments of the Trust.
- 1.9. The accounts of the Trust are subject to annual statutory audit by auditors appointed by the CAG.
- 1.10. The Trust was set up with an initial corpus of ₹66 crore. When the Trust was set up, it was expected to have a corpus of ₹2,000 crore over a period. Initially, the cap on the maximum exposure was kept at 10 times of the corpus available at any given time. However, with increase in demand from exporters, the Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA), at its meeting held on 10.09.2014, increased the corpus/ grant-in-aid commitment to the NEIA Trust from ₹2000 crore to ₹4000 crore and also increased the risk undertaking capacity (Maximum Liability Permissible) from 10 times to 20 times of the actual corpus. The CCEA had, at its meeting held on 29.09.2021, approved additional corpus infusion of ₹1,650 crore in NEIA scheme and enhanced the authorized corpus commitment to the NEIA to ₹ 4,741 crore. Accordingly, the Gol had infused capital of ₹ 744 crore in FY 2021-22 and ₹ 906 crore subsequently in FY 2022-23, thereby enhancing the capital of the trust to ₹ 4,741 crore.
- 1.11. The contribution received from the Government of India over the years, as of March 31, 2025 was ₹ 4,741 crore. However, as of March 31, 2025, there was no corpus available to support existing of covers issued/approved after accounting for income (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds), expenses (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) and provision for likely claims/ against the defaults reported and income tax demand under court appeal proceedings. The total funds available with the Trust as of March 31, 2025 was ₹ 1,419.69 crore. Further, after accounting for



income (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds), expenses (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) and provision for likely claims/ against the defaults reported and income tax demand under court appeal proceedings, there is no corpus available to meet the outstanding liabilities of the Trust on account of pending claims, the tax related provisions, etc.

1.12. The CCEA, at its meeting held on 19.03.2025, had approved the proposal for infusion of ₹ 2,687.30 crore into the NEIA Trust and to enhance the authorized corpus of the Trust to ₹ 7,428.30 crore. Out of the approved corpus infusion of ₹2,687.30 crore, ₹500 crore was released by the Government of India on June 23, 2025.

1.13. The NEIA Trust promotes MLT/project exports by extending (partial/full) support to covers issued by ECGC for MLT/project exports and by extending cover to India Exim Bank for Buyer's Credit (BC-NEIA) tied to project exports from India. Out of the total risk underwriting capacity/ ML (Headroom), 75% is reserved for the Buyer's credit scheme of the NEIA (BC-NEIA) and the balance 25% is earmarked for supporting ECGC's schemes for Medium and Long-Term exports. However, currently fresh covers are not being issued under BC-NEIA scheme, due to non-availability of headroom, as per the directions of COD.

2. NEIA Performance Summary

2.1 The Trust, in its initial days, promoted project exports by providing indemnity/guarantee to ECGC only for mutually agreed portion of the risk to be underwritten by ECGC in respect of large-value Medium and Long-Term export/project exports contracts or those in high-risk countries which were beyond the underwriting capacity of ECGC.

2.2 In 2011, as part of the drive to promote project exports, the NEIA Trust introduced a cover for the Buyer's Credit to be extended by India Exim Bank (BC-NEIA Cover). Buyer's Credit is a unique financing mechanism that provides loan to the buyer (credit is extended to the buyer) tied to specific



project from India that is to be executed by an Indian Project Exporter (IPE). This facility serves as an effective market entry tool to traditional as well as new markets in developing countries, which need deferred credit on medium or long-term basis. Since its inception, BC-NEIA cover has served as a catalyst for promoting project exports from India. The risks under the scheme are underwritten entirely on the books of the NEIA Trust.

- 2.3** In all, 28 covers have been issued under the Buyer's Credit scheme, i.e. BC-NEIA scheme, for an equal number of projects with an aggregate Maximum Liability of ₹ 25,097 crore to India Exim Bank in 14 countries, viz Sri Lanka, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania, Iran, Senegal, Maldives, Cote d'Ivoire, Ghana, Cameroon, Suriname, Mauritania, and Uganda. Out of these 28 covers, 16 covers with an aggregate maximum liability of ₹15,525 crore were closed. This includes the covers on Iran (1), Ghana (2), Sri Lanka (4), Suriname (2), Zambia (1), Zimbabwe (2), which were closed on account of claim payments to the tune of ₹8,557.09 crore against these projects. Further, three covers, one each on Zambia, Tanzania, and Senegal, were closed upon successful repayments. There were 12 Buyer's Credit covers in force as of March 31, 2025, with an aggregate Maximum Liability of ₹9,572 crore for projects in 7 countries being executed by 7 exporter beneficiaries. The major sectors covered under BC-NEIA are Construction Works, Supply of Engineering Goods, Water Treatment Plants, Power Transmission & Distribution etc.
- 2.4** The COD at its 60th meeting, held on 19.03.2024, directed that in view of non-availability of the headroom and as per recommendation of Expenditure Finance Committee (EFC), no further covers under the BC-NEIA should be issued.
- 2.5** As of 31.03.2025, the Trust had paid claims amounting to ₹ 6,829.67 crore to Exim Bank of India for their 12 Buyer's Credit facilities in Ghana, Iran, Sri Lanka, Suriname, Zambia, and Zimbabwe. As of 31.03.2025, Exim Bank had shared total recoveries of ₹ 293 crore with the Trust on account of claims paid under Buyer's Credit facilities in Iran, Sri Lanka, Suriname, Zambia, and Zimbabwe. During FY 2024-25, COD at its 61st Meeting held on 18.03.2025




approved claim under BC-NEIA cover issued for the project in Zambia with admissible loss, as of 31.03.2025, of ₹ 130.32 crore(approx.).

2.6 Under its MLT risk sharing scheme, the NEIA Trust, over the years, has provided support to ECGC for the 331 insurance covers, with Maximum Liability of ₹19,591 crore, issued by the company against 213 projects valued at ₹43,571 crore. As per extant provisions, the support by the NEIA Trust to ECGC ranges from 50% to 100% of risk underwritten by the Company. The risk is shared by ECGC with the Trust by way of payment of the requisite guarantee fee to the Trust as per the guidelines approved by the COD. As of 31.03.2025, 45 covers for 37 projects were in force with maximum liability of ₹2,332 crore, under the MLT Risk Sharing Scheme. During FY 2024-25, the COD, in its 61st meeting held on 18.03.2025, approved reimbursement of ₹72.42 crore from the NEIA Trust towards claims settled by ECGC under covers for projects in Afghanistan, issued under a risk-sharing arrangement with the NEIA Trust.

2.7 Total exposure under covers in-force

The exposure covered by the Trust during FY 2024-25 has shown a negative growth of 24% (approx.) as against the corresponding period during previous FY 2023-24. The reduction in exposure is primarily on account of closure of covers due to settlement of claims or upon the expiration of covers.

**Exposure of projects cover inforce under NEIA
in ₹ Cr**



3. Summary of Covers under NEIA as of 31.03.2025

S. No.	Description	BC-NEIA	ECGC-MLT Risk Sharing Scheme	
			Policy	ECIB
Covers Issued as of 31.03.2025				
1	No. of Projects Covered (with Project value)	28 (₹18,006 cr)	179 (₹34,221 cr)	34 (₹ 9,350 cr)
2	No. of Covers Issued (with cover value)	28 (₹16,661 cr)	209 (₹22,644 cr)	122 (₹2,834 cr)
3	Maximum Liability under Covers Issued	₹ 25,097 cr	₹17,475 cr	₹2,116 cr
4	No. of Projects Closed (with Project value)	16 (₹11,438 cr)	147 (₹ 26,133 cr)	29 (₹ 8,179 cr)
5	No. of Covers Closed (with cover value)	16 (₹10,280 cr)	175 (₹ 19,782 cr)	111 (₹ 2,221 cr)
6	No. of Projects In force (with Project value)	12 (₹ 6,568 cr)	32 (₹ 8,088 cr)	5 (₹ 1,171 cr)
7	No. of Covers In force (with cover value)	12 (₹6,381 cr)	34 (₹ 2,862 cr)	11 (₹ 613 cr)
8	Maximum Liability As of 31.03.2025	₹ 9,572 cr	₹ 2,090 cr	₹ 242 cr
9	No. of Countries Covered*	58		
10	No. of Exporters Covered*	81		

*Country and exporter are counted only once irrespective of the No. of covers (Policy/ECIB/ Buyer's Credit) issued.

4. Financial Position of the Trust and Capacity Utilization up to March, 2025

- 4.1 The contribution received from the Government of India over the years, as of March 31, 2025 was ₹4,741 crore. Total available corpus as of March 31, 2025 after accounting for income of ₹4,738.65 crore (interest, guarantee fee, recoveries, tax refunds etc) and expenses of ₹ 8,059.96 crore (administrative expenses, claim payment, income-tax etc) was ₹ 1,419.69 crore.
- 4.2 The total exposure that can be underwritten by the Trust is 20 times of available corpus or ₹ 80,000 crore whichever is lower.



4.3 As of March 31, 2025, the NEIA Trust had a utilized headroom of ₹ 11,904 crore implying that the Maximum Liability of covers issued / approved was not supported by corpus and there was no room available for underwriting new cover requests.

4.4 The details pertaining to income and expenses of the Trust up to 31.03.2025, since inception, are shown in the table below:

Income	Amount in crore	Expenses	Amount in crore
1. Grant-in-aid from Government	₹ 4,741.00	1. Income-Tax	₹ 1,109.78
2. Guarantee fee Earned	₹ 834.13	2. Claims	₹ 6,908.33
3. Tax Refund	₹ 947.91	3. Administrative expense	₹ 41.85
4. Interest earned on FDR	₹ 2,644.14		
5. Recovery of claims (Stimulus package and Buyer's Credit)	₹ 312.47		
Total	₹ 9,479.65		₹ 8,059.96

4.5 The investment of the funds of the Trust is made as per guidelines approved by the COD. The decisions on investment of funds are taken by the Investment Committee consisting of senior officers of ECGC Limited. As per the guidelines in place, corpus of the Trust is invested in fixed deposits with scheduled commercial banks.

5. Key Highlights of FY 2024-25

5.1 The total income booked for the Trust during FY 2024-25 was ₹ 502.83 crore (previous FY ₹ 3,794.06 crore), which includes interest income of ₹ 126.36 crore (previous FY ₹ 203.23 crore), guarantee fee income of ₹ 27.68 crore (previous FY ₹ 117.08 crore), claim recovery of ₹ 131.15 crore (previous FY ₹ 106.31 crore), and reversal of last year's claim provision, reversal of contribution to Public Trust Administration Fund & reversal of legal charges payable to ECGC of ₹ 217.64 crore.



5.2 The total expenses for the year were ₹ 7.35 crore (Previous FY ₹ 3,803.39 crore) comprises of administrative charges to ECGC of ₹ 1.53 crore, provision for contribution to Public Trust Administration Fund of ₹ 5.68 crore, consultancy legal expenses and other charges of ₹ 0.14 crore.

5.3 There was a surplus of ₹ 495.48 crore (previous FY deficit of ₹ 9.32 crore). The total funds available with the Trust, as of 31.03.2025, was 1,419.70 crore.

Balance Sheet as of 31.03.2025			
Liabilities		Assets	
Corpus received from GOI	4,741.00	Income Taxes Paid (Advance Tax, TDS and Taxes paid against demand)	552.57
Provision for contribution to Public Trust Admin. Fund	80.70	Prepaid Expenses	7.09
Provision for Claims	1,799.84	Income Outstanding	0.95
Guarantee fee received in advance	142.36	Cash and Bank Balances (including FDs with banks)	1,419.70
Sundry Credit Balance	1.00		
Balance of Income and Expenditure account (As per last Balance Sheet)	(5,280.07)		
Surplus (Deficit) as per CY's Income and Expenditure Account	495.48		
Total	1,980.31		1,980.31

Income & Expenditure			
Expenditure		Income	
Consultancy Charges and Misc. Expenses	0.12	Interest income on investments and Tax Refund	126.36
Administrative Expenses	1.53	Guarantee Fee	27.68
Contribution to Public Trust Admin. Fund	5.68	Claim recovery	131.15



Audit Fee	0.02	Reversal of Legal Charges payable to ECGC	3.08
Surplus	495.48	Reversal of contribution to Public Trust Administration Fund	90.49
		Reversal of provision for claims	124.07
Total	502.83		502.83

5.4 As of 31.03.2025, the Trust had invested ₹1,417.00 crore in Fixed Deposits with various Public and Private Sector Banks. Other assets include accrued interest of ₹ 0.95 crore, Bank balance of ₹ 2.70 crore, prepaid administrative expenses of ₹7.09 crore and income taxes paid (including advance tax, TDS and taxes paid against demand) of ₹552.57 crore so far. Advance tax of Rs. 99.52 crore was paid during FY 2024-25. The total assets of the Trust were ₹1,980.30 crore as of 31.03.2025.

